



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2013/आश्विन 30, 1935

No. 529]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2013/ASVINA 30, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 697(अ)/आ.व./ईख.-केंद्रीय सरकार ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए, और उसके उप-खण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्रीय सरकार के ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और एसोसिएशनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो, से परामर्श करने के पश्चात् 9.5% चीनी की मूल रिकवरी से सम्बंध गन्ने के 170.00 रुपये प्रति क्विंटल की उचित तथा लाभकारी कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक स्तर 0.1% प्वाइंट की वृद्धि लिए 1.79 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अध्यक्षीन हो, के आधार पर एतद्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस उचित तथा लाभकारी कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केंद्र पर 30 सितम्बर, 2013 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2012-2013 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा:-

“बशर्त कि जिन मामलों में क्रय केंद्र मिल के द्वार तक गन्ने की ढुलाई में आई ढुलाई लागत चीनी मिल मालिकों द्वारा वहन की जाती है उन मामलों में रेल अथवा सड़क से जुड़े किसी क्रय केन्द्र पर खरीदारी के लिए सुपुर्द किए गए गन्ने के लिए 38 पैसा प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर की दर पर ढुलाई रिबेट का भुगतान अधिकतम 7.65 रुपए क्विंटल की शर्त के अध्यक्षीन किया जाएगा:

इस शर्त के अध्यक्षीन भी कि उचित तथा लाभकारी मूल्य से उपर्युक्त ढुलाई रिबेट की अनुमति केवल उन चीनी मिलों के लिए होगी जो समय से गन्ना मूल्य भुगतान करते हैं और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के अनुसार देय ब्याज सहित गन्ना मूल्य के समस्त बकाया का भुगतान करते हैं।”

अनुसूची

क्र.स.	संयत्र कोड	संयत्र नाम	चीनी मिल नाम और पता	वसूली प्रतिशत	उचित लाभकारी मूल्य (रूपये प्रति कुंटल)
		पंजाब			
1.	00101	गुरदासपुर	गुरदासपुर सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड. पोस्ट आ. न. 27, गुरदासपुर, जिला-गुरूदासपुर -14 3521, पंजाब	8.4	170.00
2.	00201	बटाला	द बटाला सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड. बटाला-143505, जिला गुरूदासपुर, पंजाब.	8.4	170.00
3.	00301	फाज़िल्का	द फाज़िल्का सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड. फाज़िल्का, जिला फिरोजपुर, पंजाब	9.1	170.00
4.	00401	मोरिंडा	द मोरिंडा सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड. पो.आ. मोरिंडा, रोपड़ -140101, पंजाब.	8.72	170.00
5.	00901	धुरी	भगवानपुरा चीनी मिल, धुरी, पंजाब.	9.57	171.79
6.	01001	फगवाड़ा	वाहिद संधार शुगर्स लिमिटेड, फगवाड़ा-144401, जिला कपूरथला, पंजाब	9.46	170.00
7.	31901	नकोदर	नकोदर सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड नकोदर, जिला जालंधर, पंजाब	8.33	170.00
8.	33501	अजनाला	द अजनाला सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड, भल्लापिंड, अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब	7.73	170.00
9.	34201	मुकेरियां	ओसवाल शुगर्स लिमिटेड, मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पिन: 144 211, पंजाब.	9.92	177.16
10.	42301	अमलोह	नाहर चीनी एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, अमलोह, तहसील नाभा, जिला पटियाला, पंजाब	9.6	171.79
11.	00801	बुढेवाल	बुढेवाल सहाकारी चीनी मिल लि0, दोराहा, तहसील समराला, जिला	9	170.00
		हरियाणा			
12	01201	पानीपत	दि पानीपत सहाकारी चीनी मिल लि0, पानीपत, जिला, पानीपत, हरियाणा	9.2	170.00
13	01301	करनाल	दि करनाल सहाकारी चीनी मिल लि0, करनाल, जिला, करनाल, हरियाणा	9.1	170.00
14	01401	सोनीपत	सोनीपत सहाकारी चीनी मिल लि0, सोनीपत, जिला, सोनीपत, हरियाणा	8.8	170.00
15	01601	पलवल	दि पलवल सहाकारी चीनी मिल लि0, तहसील पलवल, जिला, फरीदाबाद, हरियाणा	81	170.00
16	42701	गोहाना	दि हरियाणा राज्य सहाकारी चीनी मिल संघ लि0, गोहाना, जिला, सोनीपत, हरियाणा		170.00
17	01101	रोहतक	द हरियाणा सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड, पो.आ. रोहतक, जिला- रोहतक हरियाणा	7.93	170.00
18	01701	जौंद	द जौंद सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड., तहसील और जिला- जौंद, हरियाणा	8.5	170.00
19	01801	यमुनानगर	द सरस्वती चीनी मिल, पो.आ. यमुनानगर, अम्बाला - 135001, हरियाणा.	10.01	178.95
20	33801	कैथल	द कैथल सहाकारी चीनी मिल लिमिटेड, पो.आ. कैथल, जिला कैथल - 132027, हरियाणा.	8.21	170.00
21	37701	नारायणगढ़	द नारायणगढ़ चीनी मिल लिमिटेड, पो.ओ. नारायणगढ़, जिला अंबाला, पिन: 134202, हरियाणा	9.53	170.00
		राजस्थान			
22	01901	श्री गंगानगर	द गंगानगर चीनी मिल लिमिटेड., श्री गंगानगर - 335001, राजस्थान.	7.66	170.00
		उत्तराखंड			

23	02207	डोईवाला	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, डोईवाला, जिला, देहरादून, उत्तराखंड	8.7	170.00
24	03101	इकबालपुर	द महा लक्ष्मी सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, इकबालपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड.	8.83	170.00
25	03201	लक्सर	राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल प्रा. लिमिटेड, लक्सर -. 247 663, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड.	9.5	170.00
26	04001	किच्छा	किच्छा चीनी कंपनी लिमिटेड., किच्छा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड.	9.47	170.00
27	04401	बाजपुर	द बाजपुर सहकारी चीनी फैक्टरी लिमिटेड, बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड.	9.63	171.79
28	04501	नादेही	द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, राजापुर, पूरनपुर नादेही - 244717, जिला उधम सिंह उत्तराखंड.	8.7	170.00
29	04701	गदरपुर	द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड.	9.03	170.00
30	06101	काशीपुर	डीएसएम एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूनिट डीएसएम चीनी (काशीपुर) जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड.	8.69	170.00
31	49201	लिम्बरहंडी	उत्तम चीनी मिल लिमिटेड, लिम्बरहंडी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड.	8.9	170.00
		उत्तर प्रदेश			
32	02202	सकोटी टांडा	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट सकोटी-टांडा, जिला, मेरठ	8.4	170.00
33	02206	रोहन कलां	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, पोस्ट आफिस रोहन कलां, जिला मुज़फ्फर नगर, उत्तर प्रदेश	7.8	170.00
34	02501	अनूप शहर	किसान सहकारी चीनी मिल लि0, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	7.6	170.00
35	03602	मलकपुर	एसबीईसी शुगर लि0 मलकपुर, तहसील बडौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश	8.2	170.00
36	03701	सिंभावली	दि सिंभावली शुगर मिल्स प्रा0 लि0, सिंभावली, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश	8.8	170.00
37	57601	गंगनौली	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लि0, गंगनौली, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	8.5	170.00
38	58601	बृजनाथपुर	मैसर्स सिंभावली शुगर लिमिटेड, यूनिट एट बृजनाथपुर, तहसील हापुर, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-245 101	8.6	170.00
39	04201	गजरोला	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गजरोला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	8	170.00
40	04301	बिलासपुर	रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश	8.6	170.00
41	04901	बिलासपुर	बिलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, बिलासपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	7.8	170.00
42	05301	बदायूँ	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, बदायूँ, जिला बदायूँ, उत्तर प्रदेश	7.5	170.00
43	05401	तिलहर	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, तिलहर, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश	7.5	170.00
44	05701	सेमीखेड़ा	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सेमीखेड़ा, तहसील एवं जिला बरेली, उत्तर प्रदेश	8.4	170.00
45	05901	सियोहारा	अपर गंगेज शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि0, सियोहारा, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	9.4	170.00
46	06201	रोसा	रोसा शुगर वर्क्स लि0, (प्रो0 अवध शुगर मिल्स लि0) रोसा, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश	9	170.00
47	32901	नजीबाबाद	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, स्नेह रोड, नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	9.3	170.00

48	55801	आनंदगोपी	मैसर्स आनंद एग्रीकैम इंडिया लि0, गोपीलाधुआ, तहसील- कोल सिकंदरा राव, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	8.2	170.00
49	59501	बेलवारा	मैसर्स राना शुगर्स लि0, बेलवारा, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	8.3	170.00
50	66701	बिसौली	मैसर्स यादु शुगर्स लि0, गांव सुजानपुर, बिसौली, जिला बदायूँ, उत्तर प्रदेश	8.8	170.00
51	67601	करीमगंज	राना शुगर्स लि0, करीमगंज, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश	8.5	170.00
52	02216	जरवाल	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट जरवाल रोड़, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश	8.4	170.00
53	02220	खड्डा	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, पोस्ट आफिस राजाबाजार, यूनिट खड्डा, जिला पड़रौना, उत्तर प्रदेश	9.4	170.00
54	06801	हरगांव	दि अवध शुगर मिल्स लि0, हरगांव, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश	9.6	171.79
55	07401	घोसी	किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, घोसी, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश	7.7	170.00
56	07501	सुलतानपुर	किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, सुलतानपुर, अवध, उत्तर प्रदेश	8.4	170.00
57	07702	खलीलाबाद	खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा0 लि0, खलीलाबाद, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	9.2	170.00
58	07902	कैप्टनगंज	द कनौरिया शुगर्स एंड जनरल मैनुफक्चरिंग को0 लि0, कैप्टनगंज, जिला पड़रौना, उत्तर प्रदेश	10	178.95
59	59401	जवाहरपुर	मैसर्स डालमिया चीनी मिल्स लि0, जवाहरपुर, तहसील-सीतापुर सदर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश	9.1	170.0
60	61501	ढाढा बुजुर्ग	द अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, यूनिट न्यू इंडिया शुगर मिल्स, ढाढा बुजुर्ग में स्थापित, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	9.9	177.16
61	02301	बागपत	द बागपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, बागपत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश.	7.71	170.00
62	02401	रमाला	रमाला सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, रमाला, जिला-बागपत,पिन: 250 617, उत्तर प्रदेश	8.28	170.00
63	02601	सरसावा	द किसान सहकारी चीनी फैक्टरी लिमिटेड, सरसावा, जिला सहारनपुर, पिन: 247 232, उत्तर प्रदेश	7.46	170.00
64	02701	ननौता	किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, ननौता-247452 जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	7.9	170.00
65	02801	मोरना	गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, मोरना जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	8.34	170.00
66	02901	दौराला	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला मेरठ, पिन: 250221, उत्तर प्रदेश	8.74	170.00
67	02902	मवाना	मैसर्स मवाना चीनी लिमिटेड (मवाना चीनी यूनिट) मवाना, जिला मेरठ - 250402, उत्तर प्रदेश	8.64	170.00
68	03001	देवबंद	त्रिवेणी इंजी. एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देवबंद, जिला सहारनपुर, पिन: 247554, उत्तर प्रदेश	8.61	170.00
69	03301	खतौली	त्रिवेणी इंजी. वर्क्स लिमिटेड, चीनी यूनिट, द अपर इंडिया चीनी मिल, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर-251201, उत्तर प्रदेश	8.75	170.00
70	03401	मंसूरपुर	मैसर्स धामपुर चीनी मिल लिमिटेड, मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	8.52	170.00

71	03501	शामली	द अपर दोआब चीनी मिल, शामली - 247776, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	8.78	170.00
72	03601	मोदीनगर	द मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदी नगर - 201 204, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	8.82	170.00
73	35201	तितावी	सिएल लिमिटेड, तितावी, जिला मुजफ्फरनगर, पिन: 251301, उत्तर प्रदेश	8.54	170.00
74	47701	टोडरपुर	शकूम्बरी शूगर एंड अलायड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोडरपुर राघर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	8.51	170.00
75	48601	टिकौला	टिकौला चीनी मिल लिमिटेड, टिकौला, पीओ: रामराज - 251320, तहसील जनसथ, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	9.04	170.00
76	48701	ऊन	सर शादी लाल इंटरप्रोइजेज लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र, जिला मुजफ्फरनगर, पिन: 247776, उत्तर प्रदेश	8.59	170.00
77	55601	किनौनी	बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, किनौनी, पीओ: रासूलपुर, जिला मेरठ, पिन: 250502, उत्तर प्रदेश	8.26	170.00
78	56101	थानाभवन	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यूनिट: थानाभवन, जिला मुजफ्फरनगर, पिन: 241772, उत्तर प्रदेश	8.33	170.00
79	56201	भायसाना	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यूनिट: भायसाना, पीओ: बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर, पिन: 251309, उत्तर प्रदेश	8.83	170.00
80	56801	नागलामल	मैसर्स मावन चीनी लिमिटेड और यूनिट (नागलामल चीनी काम्प्लेक्स), नागलामल, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश	8.61	170.00
81	57201	साबितगढ़	मैसर्स त्रिवेणी इंजी. एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साबितगढ़ - 203129 पीओ कारोरा, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उ. प्र.	9.1	170.00
82	59601	खाईखेरी	मैसर्स उत्तम चीनी मिल लिमिटेड यूनिट, खाईखेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश.	8.87	170.00
83	59701	शेरमाऊ	मैसर्स उत्तम चीनी मिल लिमिटेड, शेरमाऊ, तहसील-नाकुर, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	8.67	170.00
84	04801	हरदुआगंज	द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पोस्ट साथ, जिला अलीगढ़, पिन: 202127, उत्तर प्रदेश	7.25	170.00
85	05101	पूरनपुर	द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पूरनपुर, जिला पीलीभीत, पिन 262122, उत्तर प्रदेश	6.88	170.00
86	05501	बेलरायां	द सरजू सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, बेलरेयान, जिला खीरी, उ. प्र.	8.63	170.00
87	05601	सम्पूर्णनगर	किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, सम्पूर्णनगर, जिला लखीमपुर खीरी, उ. प्र.	8.36	170.00
88	05801	धामपुर	धामपुर चीनी मिल लिमिटेड, धामपुर, जिला बिजनौर, उ. प्र.	9.55	171.79
89	06001	राजकासाहसपुर	द अजूधियां चीनी मिल, राजा, का सहसपुर, जिला मुरादाबाद (यू पी)	8.57	170.00
90	06102	पीलीभीत	एल.एच. चीनी फैक्ट्रीज लिमिटेड, पीलीभीत, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	9.09	170.00
91	06401	ऐरा	गोविन्द चीनी मिल लिमिटेड, पीओ: ऐरा एस्टेट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	9.14	170.00
92	06701	निओली	शेरवानी चीनी सिंडिकेट लिमिटेड, पीओ: निओली, जिला एटा - 207402, उत्तर प्रदेश	9.23	170.00
93	47501	जे के शुगर	जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिन्धरौली रोड, मीरगंज, जिला बरेली - 243504, उत्तर प्रदेश	9.23	170.00
94	47801	द्वारिकेश	द्वारिकेश चीनी उद्योग लिमिटेड, द्वारिकेश नगर - 246762, जिला बिजनौर, उ. प्र.	10.16	182.53
95	48301	जे0 बी0 गंज	डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड, अजबापुर, पीओ: मुल्लापुर, जिला लखीमपुर खीरी, पिन: 261505, उत्तर	9.59	171.79

			प्रदेश		
96	48401	अगवांपुर	दीवान शुगर्स लिमिटेड, गांव अगवांपुर, मुरादाबाद - हरिद्वार रोड, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	8.97	170.00
97	48501	रूपापुर	मैसर्स डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड (डीएससीएल चीनी, रूपापुर) रूपापुर, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	9.35	170.00
98	56301	बिलाई	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यूनिट: बिलाई, जिला बिजनौर, उ. प्र.	9.63	171.79
99	56601	द्वारिकेशपुरम	द्वारिकेश चीनी उद्योग लिमिटेड, द्वारिकेश पुरम, 246722, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश.	9.73	173.58
100	57401	पुदरीखुर्द	मैसर्स उत्तम चीनी मिल लिमिटेड, गांव बरकतपुर, पोस्ट सबालपुर बितरा, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश.	9.1	170.00
101	57801	बारखेड़ा	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यूनिट: बारखेड़ा, पीलीभीत, बीसलपुर रोड, बारखेड़ा कलां, जिला पीलीभीत - 26220, उ. प्र.	8.96	170.00
102	58001	चंदनपुर	मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चंदनपुर यूनिट पीओ चापना तहसील: हसनपुर, जिला जेपी नगर, पिन - 244 255, उत्तर प्रदेश	9.26	170.00
103	58101	हरियावन	मैसर्स डीएससीएल चीनी - हरियावन, गांव व डाकघर: हरियावन, जिला हरदोई - 241405, उत्तर प्रदेश	9.53	170.00
104	58201	लोनी	मैसर्स डीएससीएल चीनी - लोनी, ग्राम लोनी, पीओ: अंझी शाहबाद, जिला हरदोई - 241124, उत्तर प्रदेश	9.38	170.00
105	58301	रानीनंगल	मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरी और उद्योग लिमिटेड यूनिट रानीनंगल, पीओ इलाहाबाद-पीपली, तहसील: ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, पिन - 244401, उत्तर प्रदेश	9.22	170.00
106	58701	मिलकनारायणपुर	मैसर्स त्रिवेणी इंजी. एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट: मिलकनारायणपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश	9.04	170.00
107	59101	राजपुरा	धामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड यूनिट: राजपुरा तहसील: गुन्नौर जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश	9.48	170.00
108	60001	निगोही	मैसर्स डालमिया चीनी मिल (पीआरओपी. डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड) यूनिट: निगोही, गांव कुइयां, पोस्ट अरेली, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	9.31	170.00
109	60201	द्वारिकेशधाम	मैसर्स द्वारिकेश चीनी उद्योग लिमिटेड, यूनिट: द्वारिकेश धाम - 243 503, फरीदपुर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश	9.09	170.00
110	60301	मकसूदपुर	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यूनिट: मकसूदपुर, जिला शाहजहांपुर, पिन: 242402, उत्तर प्रदेश	9.18	170.00
111	02219	सिसवाबाजार	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, इकाई सिसवाबाजार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	9.25	170.00
112	03002	रामकोला	त्रिवेणी इंजी. एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट: रामकोला - 274305, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	10.29	184.32
113	05802	रोज़ागांव	धामपुर चीनी मिल लिमिटेड (बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की एक इकाई) रोज़ागांव, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	9.7	173.58
114	06301	गोला	बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यूनिट: गोला गोकर्नाथ, जिला लखीमपुर खीरी, पिन: 262802, उत्तर प्रदेश	9.7	173.58
115	06501	पालियाकलां	बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, पालियाकलां, जिला खीरी, उ. प्र.	9.07	170.00
116	07001	नानपाड़ा	श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, नानपाड़ा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश	8.38	170.00

117	07601	महमूदाबाद	द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, महमूदाबाद (अवध), जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश	8.33	170.00
118	08001	पडरौना	मैसर्स कवनपोरे शुगर वर्क्स लिमिटेड, पडरौना पोस्ट पडरौना-274304, जिला पडरौना, उत्तर प्रदेश	9.31	170.00
119	08101	सियोराही	द संयुक्त प्रांत चीनी कंपनी लिमिटेड, सियोराही पोस्ट सियोराही, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश.	9.76	175.37
120	08401	प्रतापपुर	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान चीनी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट: प्रतापपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	9.6	171.79
121	08501	वाल्टरगंज	गोविंद नगर चीनी लिमिटेड, पीओ वाल्टरगंज, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	9.39	170.00
122	08502	बस्ती	बस्ती चीनी कम्पनी मिल लिमिटेड पीओ & जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	9.16	170.00
123	08601	बिस्वां	सेकसरिया बिसवां चीनी फैक्टरी लिमिटेड, पीओ: बिसवां, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश	9.78	175.37
124	08801	के.एम.शुगर	कमलापत मोतीलाल चीनी मिल प्रा. लिमिटेड, पीओ मोतीनगर, जिला फैजाबाद उत्तरप्रदेश	9.57	171.79
125	08901	बलरामपुर	बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, पीओ व जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	9.67	173.58
126	09001	तुलसीपुर	तुलसीपुर चीनी कंपनी, (बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड की इकाई), पीओ: तुलसीपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	9.84	175.37
127	09201	बभनान	बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, यूनिट: बाभनान, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	9.49	170.00
128	37301	गडौरा	जेएचवी चीनी निगम लिमिटेड, गडौरा, जिला महाराजगंज - 273305. उत्तर प्रदेश	9.91	177.16
129	47601	ओसवाल ओवरसीज	ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश	9.68	173.58
130	48001	मैजपुर	इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज, मैजपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	9.13	170.00
131	54501	हैदरगढ़	बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, यूनिट: हैदरगढ़, गांव एवं पीओ: पोखरा, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	9.12	170.00
132	56501	अकबरपुर	बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड यूनिट: अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	9.7	173.58
133	57101	परसैंडी	मैसर्स पार्ले बिस्कुट प्रा. लिमिटेड, परसैंडी, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच- 271903, उत्तर प्रदेश	8.87	170.00
134	57501	मानकपुर	मैसर्स बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, यूनिट: मानकपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	9.67	173.58
135	57701	खम्बरखेड़ा	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, खम्बरखेड़ा यूनिट, तहसील एवं जिला लखीमपुरखीरी, पिन - 271 200, उत्तर प्रदेश	9.46	170.00
136	59301	कुम्भी	मैसर्स बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड यूनिट: कुम्भी, गांव कुम्भी, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	9.78	175.37
137	60401	गुलेरिया	मैसर्स बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, यूनिट गुलेरिया, गोलागोकरनाथ, जिला लखीमपुर खीरी, उ. प्र.	9.02	170.00
138	60501	रूधौली	मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड, यूनिट रूधौली, अथदामा तहसील रूधौली जिला बस्ती उत्तरप्रदेश	9.54	170.00
139	60601	कुंदरखी	मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यूनिट-कुंदरखी-कुस्तुवा-कुंदरखी तह0 और जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश	9.25	170.00
140	60901	इटाई मैदा	मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड, यूनिट - इटाई मैदा, तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर, उ. प्र.	9.73	173.58
		मध्य-प्रदेश			
141	51201	कृषक	कृषक सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, नारायणपुर, तहसील राघोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश	9	170.00

142	62201	कोडिया	मैसर्स शक्ति शुगर मिल्स प्राईवेट लि०, कोडिया, तहसील: गदरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश	9.2	170.00
143	62901	पोंदर	मसर्स नर्मदा शुगर प्रा० लि० पोंदर, तहसील सालीचौका, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश	9.2	170.00
144	63001	थैनी	मसर्स रामदेव शुगर प्रा० लि०, डाक थैनी, तहसील बैंकहेडी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश	9.2	170.00
145	63101	बचाई	मसर्स महाकौशल शुगर एवं पावर इंडस्ट्रीज लि० बचाई, तहसील एवं जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश	8	170.00
146	09501	नवलनगर	नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, जिला बुरहानपुर - 450331, मध्य प्रदेश	10.94	195.06
147	09601	डाबरा	द ग्वालियर चीनी कंपनी लिमिटेड, डाबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 475110	8.59	170.00
148	37201	खलबुजुर्ग	गिरधारीलाल एंड अलायड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नर्मदा नगर, घटवा, तहसील तिकारी, जिला खरगोन पिन: 451 660, मध्य प्रदेश.	10.62	189.69
149	61001	करेली	करेली चीनी मिल प्राईवेट लिमिटेड, गाडरवारा रोड, करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश.	9.68	173.58
		छत्तीसगढ़			
150	64501	अम्बिकापुर	मसर्स मा महामाया सहकारी साखर कारखाना लि०, अम्बिकापुर, प्रतापपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	10	178.95
151	54301	भोरमदेव	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा, छत्तीसगढ़.	8.03	170.00
152	65101	दन्तेश्वरी	दन्तेश्वरी मैया एसएसके मर्यादित, बालोद, दुर्ग, छत्तीसगढ़	7.2	170.00
		गुजरात			
153	41101	कोसाम्बा	श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, कोसाम्बा, तहसील मंगरूल, जिला सूरत, गुजरात	10.5	187.90
154	10101	बरदौली	श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, पीओ: सरदार बौध, बाबेन-बारदौली - 394602, जिला सूरत, गुजरात.	11.17	200.43
155	10201	माधी	श्री माधी विभाग एस खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, पीओ मांडली, जिला सूरत, गुजरात	10.59	189.69
156	10301	चलथान	श्री चलथान विभाग खांड उद्योग सहकारी मांडली लिमिटेड, पोस्ट चलथान, जिला सूरत, पिन: 394305, गुजरात	10.6	189.69
157	10401	सायन	श्री सायन विभाग सहकारी खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, सायन, तालुका ओल्पाड, सूरत, गुजरात.	10.29	184.32
158	10501	महुआ	श्री महुवा प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, बमानिया, तालुका महुवा, जिला सूरत, गुजरात	10.59	189.69
159	10601	पनियारी	श्री उकाई प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, पीओ: पनियारी, तहसील: व्यारा, जिला सूरत, गुजरात.	8.12	170.00
160	10701	गनदेवी	सहकारी खांड उद्योग मंडल लिमिटेड, गनदेवी - 396360, जिला वलसाड, गुजरात.	11.68	209.38
161	10801	मरोली	श्री मारोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मांडली लिमिटेड, कल्याण नगर, पीओ: मारोली बाज़ार - 396436, तहसील: जलालपोरे, जिला वलसाड, गुजरात.	10.01	178.95
162	10901	वलसाड	श्री वलसाड सहकारी खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, पारनेरा-पारदी, तहसील वलसाड, जिला वलसाड, गुजरात	10.42	186.11
163	11101	कामरेज	श्री कामरेज विभाग सहकारी खांड उद्योग मांधी लिमिटेड, नवी पारदी, तालुका कामरेज, जिला सूरत, पिन: 394150,	10.35	186.11

			गुजरात		
164	32101	वतारिया	श्री गणेश सहकारी खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, दसाड, तालुका वाली, जिला भरुच (वतारिया), गुजरात	10.29	184.32
165	40901	धारीखेड़ा	श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मांडली लिमिटेड, धारीखेड़ा, पीओ तिम्बी, जिला भरुच, पिन: 393140, गुजरात..	11.2	200.43
166	41001	गंधार	वडोदरा जिला सहकारी गन्ना, उत्पादकों के संघ लिमिटेड, गांधार तहसील -करजन, जिला, वडोदरा, गुजरात	9.71	173.58
167	41201	वीरपुर	श्री वलोड प्रदेश खंड, उद्योग सहकारी मानदली लिमिटेड, वीरपुर तहसील वालोड, जिला वालोड, गुजरात	10.31	184.32
168	57901	कुकरमुंडा	गोवर्धन चीनी उद्योग कुकरमुंडा, निज़ार, जिला व्यारा (तापी), पिन: 394380, गुजरात	8.79	170.00
169	11001	कोडिनार	श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेदुत सहकारी मांडली लिमिटेड, कोडिनार, जिला अमरेली, सौराष्ट्र, पिन: 362725, गुजरात	8.91	170.00
170	11301	तलाला	श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मांडली लिमिटेड, शासन रोड, तलाला, जिला जूनागढ़, पिन: 362150, गुजरात.	10.16	182.53
		महाराष्ट्र			
171	15601	विश्वास	विश्वास सहकारी साखर कारखाना लि0, यशवंतनगर, पोस्ट, चिखाली, तालुका शिराला, जिला- सांगली, महाराष्ट्र	13.1	234.44
172	16001	महानकाली	महानकाली सहकारी साखर कारखाना लि0 कवाथे, महानकाली, जिला सांगली, महाराष्ट्र	11.6	207.59
173	16801	गार्धीगलाज	गार्धीगलाज तालुका सहकारी साखर कारखाना लि0, गार्धीगलाज, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	12.3	220.12
174	17901	फाल्टन	न्यू फाल्टन शुगर वर्क्स लि0, तालुका फाल्टन, डाकघर शाखरवाडी, जिला सतारा, महाराष्ट्र	11.3	202.22
175	46901	रायगावं	केन एग्री एनर्जी (आई) लि0, शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लि0, रायगावं, तालुका खानापूर, जिला सांगली, महाराष्ट्र	11.6	207.59
176	64901	हेमरस	मसर्स हेमरस इंडस्ट्रीज लि0, गाट नं0 76, चुन्नेहैटे रग्गाले (केएच) ताल	12.8	229.07
177	18201	सिल्लोड	सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि0, सिल्लोड, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	10.9	195.06
178	19101	सतपुड़ा	श्री सतपुड़ा तापी परिसर सहकारी साखर कारखाना लि0, सहदा, पोस्ट आफिस पुरशोत्तम नगर, जिला धुलिया, महाराष्ट्र	10.3	184.32
179	19701	अम्बाजोगई	द अम्बाजोगई सहकारी साखर कारखाना लि0, पोस्ट आफिस अम्बासाखर, तालुका अम्बाजोगई, जिला बीड, महाराष्ट्र	11.7	209.38
180	20201	फैज़पुर	मधुकर सहकारी साखर कारखाना लि0, पोस्ट आफिस फैज़पुर, जिला जलगावं, महाराष्ट्र	10.5	187.90
181	21301	जमानी	महात्मा सहकारी साखर कारखाना लि0, जमानी, तालुका सालो, जिला वर्धा, महाराष्ट्र	9.9	177.16
182	32001	वेन गंगा	द वेनगंगा सहकारी साखर कारखाना लि0, तहसील माहोली रोड, जिला भाद्रा, महाराष्ट्र	9.3	170.00
183	39701	उजाना	बालाघाट शेतकारी एसएसके लि0 उजाना, तहसील अहमद नगर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	11.8	211.17
184	40101	मुडखेड	श्री भाऊराव चव्वाण एसएसके लि0, देगावं, तहसील एवं जिला नांदेड, महाराष्ट्र	11.9	212.96
185	50101	पांगरी	वैद्यनाथ एसएसके लि0 पांगरी, तालुका अम्बाजोगई,	11.4	204.01

			जिला बीड, महाराष्ट्र		
186	50701	रंजानी	नेचुरल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, कल्लाम, जिला ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र	12	214.75
187	51301	पानगावं	पन्नागेश्वर शुगर मिल्स लि० पनगावं, तालुका रेनापुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	12.2	218.33
188	53003	अरविंदनगर	प्रियदर्शिनी शेतकारी एसएसके लि० तुंदार, तालुका उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	11.6	207.59
189	53009	शेषनगर	जय शिवशंकर एसएसके लि० शेष नगर, मंजरी, तालुका मुखेद, जिला नांदेड, महाराष्ट्र	9.7	173.58
190	55201	डोकारे	आदिवासी एसएसके नवापुरा, नांदुरबर विभाग लि० डोकारे, तालुका नवापुरा, जिला नांदुरबर, महाराष्ट्र	10.2	182.53
191	55701	बेला	पूर्ति साखर कारखाना लि० गावं खुरसापुर (बेला) तहसील उमरेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	9.5	170.00
192	66101	प्रतिभानगर	मैसर्स शरद सहाकरी साखर कारखाना लि०, प्रतिभानगर, विहमनदवा, तालुका पैठण, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	5.7	170.00
193	11901	करमवीर	करमवीर काकासाहेब वाघ एसएसके लि०, रनवाद, तालुका निफड, जिला नासिक, महाराष्ट्र	11.5	205.80
194	12001	मातेरवाडी	कडवा एसएसके लि० मातेरवाडी, तालुका दिंदोरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र	11.2	200.43
195	12301	संजीवनी	द संजीवनी (तकली) एसएसके लि०, तालुका कोपरगावं, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	11	196.85
196	12701	प्रवारनगर	द प्रवार एसएसके लि०, प्रवारनगर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	12.3	220.12
197	13701	मालेगावं	द मालेगावं एसएसके लि०, मालेगावं, बी० के० जिला पुणे, महाराष्ट्र	11.9	212.96
198	35501	संत दामाजी	श्री संत दामाजी एसएसके लि०, शिरानदागी, तालुका करमाला, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	12.1	216.54
199	38601	संगोला	संगोला, टीके एसएसके लि० वाकी (शिवाने), तालुका संगोला, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	10.2	182.53
200	55301	तकलवाडी	श्री गुरुदत्त शुगर लि०, तकलवाडी, शिरोल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13	232.65
201	61101	म्हालुंगे	मसर्स नालावाडा शुगर मिल्स लि०, म्हालुंगे, तालुका चांदगढ, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13	232.65
202	61701	सोनारी	मसर्स भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि०, सोनारी, तालुका परांदा, जिला पुणे, महाराष्ट्र	10.2	182.53
203	65001	पिंपलदारा	मसर्स श्री संत कर्मदास एसएसके लि०, पिंपलदारा, पदसाले, तालुका मधा, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	11	196.85
204	65401	हिरदगावं	श्री साईकृपा शुगर एट पोस्ट हिरदगावं, तालुका श्रीगांडा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	10.1	180.74
205	65601	जकराया	मसर्स जकराया शुगर लि०, वातवते, तालुका मोहोल, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	12.4	221.91
206	66501	भगवंतनगर	मसर्स इंदेश्वर शुगर मिल्स लि०, उपलई, बारशी, सीतापुर, महाराष्ट्र	12	214.75
207	14801	श्रीराम	श्रीराम सहाकरी साखर कारखाना लिमिटेड, फलटन - 415 523, जिला सतारा, महाराष्ट्र.	11.41	204.01

208	14901	कृष्णा	कृष्णा एसएसके लिमिटेड, रेथारे बी.के., पीओ :शिवनगर, तहसील कराड़, जिला सतारा, पिन :415108, महाराष्ट्र.	12.11	216.54
209	15001	भुंज	किसानवीर सतारा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, भुंज, पीओ :किसानवीर नगर, तहसील वाई, जिला सतारा, पिन :415530, महाराष्ट्र.	11.95	214.75
210	15101	मराली	बालासहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, दौलतनगर (मराली), तालुकापाटन :, जिला सतारा, महाराष्ट्र.	12.07	216.54
211	15201	सहयाद्री	सहयाद्री सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड यशवन्तनगर - 415115, कराड, जिला सतारा, महाराष्ट्र.	12.43	221.91
212	15301	शैन्द्रे	अजिंक्यत्रा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, शाहूनगर- शैन्द्रे, तहसील और जिला सतारा, पिन : 415001, महाराष्ट्र.	12.18	218.33
213	15501	वाल्वा	राजारामबापू पाटिल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, राजारामनगर, पोस्ट साखराले, तालुका वाल्वा, जिला सांगली, पिन :415414, महाराष्ट्र	12.29	220.12
214	15701	हुतात्मा	हुतात्मा किसान अहीर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, वाल्वे, जिला सांगली, महाराष्ट्र.	13.3	238.02
215	15801	अत्पाडी	मनगंगा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड सोनारसिधिनगर - 415301, जिला सांगली, महाराष्ट्र	11.37	204.01
216	16101	वारना	श्री वारना एसएसके लिमिटेड, वारनानगर -416113, तहसील पनहाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र.	12.65	227.28
217	16201	इंचलकरंजी	श्री पचंगंगा एसएसके लिमिटेड, गंगानगर इंचलकरंजी -, जिला कोल्हापुर, पिन :416 116, महाराष्ट्र.	12.17	218.33
218	16301	कुम्भीकेशरी	कुम्भी केशरी एसएसके लिमिटेड, कुदितरे कारवीर, जिला कोल्हापुर -416204, महाराष्ट्र	12.98	232.65
219	16401	बिदारी	श्री दूधगंगा वेदगंगा एसएसके लिमिटेड, बिदारी)मुडननगर), तहसील कागल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र.	13.45	241.60
220	16501	भोगवती	श्री भोगवती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, शाहूनगर (परिते), जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र.	12.7	227.28
221	16601	शिरोल	श्री दत्ता शेतकारी एसएसके लिमिटेड, दत्तानगर-416120, तहसील शिरोल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र.	12.38	221.91
222	16901	कागल	श्री छत्रपाति शाहू सहकारी चीनी फैक्ट्री, कागल-416216, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	12.83	229.07
223	17201	हुपारी	जवाहर शेतकारी एसएसके लिमिटेड, तहसील-हथकानगले, जिला कोल्हापुर, हुपारी - यालगुड -416203,	12.37	221.91

			महाराष्ट्र		
224	31201	राजाराम	राजारामबापू सूरुल, यूनिट .2 एसएसके लिमिटेड, वाटेगांव, तहसील वाल्वा, जिला सांगली, पिन :415410, महाराष्ट्र.	12.85	230.86
225	35901	जियुर	आदिनाथ एसएसके लिमिटेड, शेलगांव -भलवानी, आदिनाथनगर, पोस्ट :जियुर, तहसील कारमाला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र.	11.51	205.80
226	38401	अजारा	अजारा शेताकारी एसएसके लिमिटेड, अजारा, जिला कोलापुर, महाराष्ट्र	12.96	232.65
227	38801	कोरेगांव	जरेंदेश्वर एसएसके लिमिटेड, चिमनगांव, तालुका कोरेगांव, जिला सतारा, महाराष्ट्र.	12.44	221.91
228	46001	वांगी	सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, वांगी, तालुका खानपुर, जिला सांगली, महाराष्ट्र	11.72	209.38
229	46301	सोनावडे	उदयसिंहराव गायकवाड़ एसएसके लिमिटेड, सोनावडे, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	12.29	220.12
230	50801	हमीदवाडा	कागल तालुका एसएसके लिमिटेड, हमीदवाडा-कौलगे, तहसील कागल, जिला कोल्हापुर, पिन :416235, महाराष्ट्र.	12.79	229.07
231	52006	शेवालेवाडी	रयत एसएसके लिमिटेड, शेवालेवाडी, तहसील कराद, जिला सतारा, पिन :415111, महाराष्ट्र.	11.88	212.96
232	52501	शरद	शरद सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, नरानडे-416110 तहसील हतकंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र.	12.9	230.86
233	53002	कुंडल	क्रांति सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कुंडल तहसील पालस, जिला सांगली, महाराष्ट्र.	12.27	220.12
234	53005	ताम्बले	इंदिरा गांधी भारतीय महिला विकास एसएसके लिमिटेड, तामबाले, तहसील भुदरगढ़, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	12.07	216.54
235	53007	करनवाडी	सर्वोदय एसएसके लिमिटेड, करनवाडी, तहसील वाल्वा, जिला सांगली, महाराष्ट्र.	12.83	229.07
236	53008	मोहननगर	मोहनराव शिंदे एसएसके लिमिटेड, मोहननगर, पोस्ट: अरग, तहसील मिराज, जिला सांगली महाराष्ट्र	11.6	207.59
237	54901	गगन	पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल एसएसके लिमिटेड, दिनयनशांतिनगर, तहसील गगनबवाडा, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र.	12.36	221.91
238	61401	महसगांव	विडल शुगर्स विनिर्माण लिमिटेड पोस्ट, महसगांव, तालुक मधा, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	11.66	209.38
239	64601	जयवन्त	मैसर्स जायवन्त शुगर्स लिमिटेड, धावरवाडी और धावरवाडी, तालुका कराड़, जिला सतारा - 415109, महाराष्ट्र.	11.52	205.80
240	18501	पैठण	श्री संत एकनाथ एसएसके लिमिटेड पैठण, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	10.65	191.48
241	19301	पुसाइ	वंसंत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पुसाइ, वंसतनगर पोस्ट, पोफली-445213, तहसील उमरखंड, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र.	10.6	189.69

242	19401	डोगरखेडा	मराठवाड़ा एसएसके लिमिटेड, डोगरखेडा, तहसील कलामनूरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र.	12.12	216.54
243	19501	पथरी	द गोदावरी दूधाना एसएसके लिमिटेड, देओन्नडरा, तालुका पठारी, जिला परभणी, महाराष्ट्र	11.64	207.59
244	19601	बसमथनगर	पूर्णा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, बसमथनगर, जिला परभणी, महाराष्ट्र.	11.78	211.17
245	19801	जिओराई	जय भवानी एसएसके लिमिटेड, जिओराई -431127, जिला बीड, महाराष्ट्र	10.51	187.90
246	20601	समर्थ	समर्थ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, महालाला, पोस्ट अंकुशनगर - 431212, तहसील अम्बड, जिला जालना, महाराष्ट्र.	11.01	196.85
247	20901	मांजरा	मांजरा शेतकारी एसएसके लिमिटेड, चिन्चोलीराव विलासनगर, जिला लातूर, महाराष्ट्र.	12.4	221.91
248	21001	किल्लारी	शेतकारी एसएसके लिमिटेड किल्लारी सहकारी जिला लातूर, महाराष्ट्र.	11.01	196.85
249	32301	गोलेगांव	शंकर एसएसके लिमिटेड, फूलेनगर, तहसील भोकर, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र	11.41	204.01
250	35601	माजलगांव	माजलगांव एसएसके लिमिटेड, मिठंड, तेलगांव - 431131, जिला बीड, महाराष्ट्र.	10.98	196.85
251	36501	चोपड़ा	श्री चोपड़ा एसएसके लिमिटेड, मचाले चोपड़ा - 425107, जिला जलगांव, महाराष्ट्र.	9.56	171.79
252	37501	शमशेरपुर	एस्टोरिया एग्री एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पुराना पुष्पदन्तेश्वर एसएसके लिमिटेड, शमशेरपुर तहसील नंदुरबार, जिला धुलिया, महाराष्ट्र	9.6	171.79
253	46401	सिपोरा बाजार	श्री रामेश्वर एसएसके लिमिटेड, रावसाहबनगर, पोस्ट सिपोरा बाजार, भोकारदान, जिला जालना, महाराष्ट्र	10.6	189.69
254	46801	मुरुम	श्री विडल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, मुरुम, मुरुम - 413605, तहसील ओमर्गा, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र.	11.58	207.59
255	51101	गंगामाई	गंगामाई चीनी उद्योग लिमिटेड नाजिक बाभुलगांव, पोस्ट राक्शी, तहसील शिवगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	10.83	193.27
256	51401	द्वारिकाधीश	द्वारिकाधीश साखर कारखाना लिमिटेड, शेवेयर, तहसील सतना जिला नासिक - 423301 महाराष्ट्र.	10.66	191.48
257	52003	निवली	विकास एसएसके लिमिटेड, वैशालीनगर, निवली, तहसील और जिला लातूर, महाराष्ट्र.	11.7	209.38
258	52007	दीनदयालनगर	छत्रपति संभाजी राजे साखर उद्योग लिमिटेड, दीनदयालनगर, पोस्ट चित्ते -पिमपलगांव- 431201, सम्भाजीनगर, जिला (औरंगाबाद), महाराष्ट्र.	10.66	191.48
259	52009	काशेगांव	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर एस.एस.के. लिमिटेड, काशेगांव - 413506, तालुका और जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र.	11.69	209.38
260	52201	योगेश्वरी	योगेश्वरी चीनी उद्योग लिमिटेड, लक्ष्मीनगर, तहसील पथरी, जिला परभणी, महाराष्ट्र.	11.91	212.96
261	52401	पावरवाडी	जय महेश चीनी उद्योग लिमिटेड, पावरवाडी, तहसील माजलगांव, जिला बीड महाराष्ट्र.	11.44	204.01
262	52901	हवरगांव	शंभू महादेव चीनी और सबंद उद्योग लिमिटेड, हवरगांव, तहसील कलाम, जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र,	11.13	198.64
263	53001	मौलीनगर	श्री संत शिरोमणि मारुति महाराज एसएसके लिमिटेड, मौलीनगर, बेलकुंड, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र.	11.27	202.22
264	54801	निवाडा	रेवा एसएसके लिमिटेड, निवाडा, तहसील रेनापुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र.	12.79	229.07
265	58901	शिवानी	श्री साईबाबा शुगर्स लिमिटेड, शिवानी (बी के), गोन्डरी,	10.71	191.48

			तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र.		
266	63601	तीर्थपुरी	मैसर्स सागर एस एस कश्मीर लिमिटेड तीर्थपुरी, तहसील घनस्वांगी, जिला जालना, महाराष्ट्र	10.45	187.90
267	63801	समृद्धि	मैसर्स शुगर्स लिमिटेड, रेणुका नगर, घनस्वांगी, जिला: - जालना, महाराष्ट्र	11.27	202.22
268	65901	तालेगांव	मैसर्स जागृति चीनी और संबद्ध उद्योग लिमिटेड, गांव तालेगांव, तालुका देवनी, जिला लातूर, महाराष्ट्र.	12.57	225.49
269	67101	आर्यन शुगर्स	मैसर्स आर्यन शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड, खामगांव तालुका - बरशी, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र.	5.09	170.00
270	11701	गिर्ना	गिर्ना सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पोस्ट भाउसाहिबनगर तहसील मालेगांव नासिक - 423201, महाराष्ट्र.	10.19	182.53
271	11801	निफाड	निफाड एसएसके लिमिटेड, पोस्ट. भाउसाहिबनगर, तहसील निफाड, जिला नासिक, पिन: 422301, महाराष्ट्र.	10.3	184.32
272	12101	पालसे	नासिक एस.एस.के. लिमिटेड, पालसे, तहसील और जिला नासिक, महाराष्ट्र.	10.6	189.69
273	12201	विठेवाडी	वसंतराव दादा पाटिल एसएसके लिमिटेड, विठेवाडी, लोहांस, तहसील देवली, जिला नासिक, महाराष्ट्र	11.03	196.85
274	12401	कोपरगांव	द कोपरगांव एसएसके लिमिटेड, पोस्ट: कोल्पेवाडी , तहसील कोपरगांव, जिला अहमदनगर, पिन: 423602, महाराष्ट्र.	11.29	202.22
275	12501	गणेशनगर	श्री गणेश एसएसके लिमिटेड, श्री गणेशनगर पीओ: रंजनगांव (खुर्द), तहसील राहाता, जिला अहमदनगर, पिन: 413719, महाराष्ट्र.	11.31	202.22
276	12601	अशोकनगर	अशोक एसएसके लिमिटेड, अशोक नगर पीओ श्रीरामपुर जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	11.4	204.01
277	12801	राहुरी	राहुरी एसएसके लिमिटेड, पोस्ट राहुरी फैक्टरी, तहसील राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	10.44	186.11
278	12901	श्रीगोंडा	द श्रीगोंडा एसएसके लिमिटेड, पीओ: श्रीगोंडा, तहसील श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	10.85	195.06
279	13001	संगमनेर	संगमनेर भाग एसएसके लिमिटेड, अमृतनगर संगमनेर एस के, तहसील संगमनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	11.87	212.96
280	13101	भंडे	दनयनेश्वर एसएसके लिमिटेड, पोस्ट भंडे एसके, तहसील नेवासा, अहमदनगर, महाराष्ट्र	10.94	195.06
281	13201	वृद्धेश्वर	श्री वृद्धेश्वर एसएसके लिमिटेड, पीओ वृद्धेश्वर एसके तहसील पाथरडी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	11.15	200.43
282	13301	जगदम्बा	श्री जगदम्बा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, राशीन तहसील कर्जत, अहमदनगर-414403, महाराष्ट्र.	11.37	204.01
283	13401	सोनाई	मूला एसएसके लिमिटेड, सोनाई, तहसील नेवासा जिला अहमदनगर - 414105, महाराष्ट्र.	11.21	200.43
284	13501	परनेर	परनेर तालुका एसएसके लिमिटेड, परनेर देवीभ्योरे, तहसील परनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	11.01	196.85
285	13601	नीरा	श्री सोमेश्वर एसएसके लिमिटेड, पीओ सोमेश्वरनगर, तहसील बारामती, जिला पुणे, पिन: 412306, महाराष्ट्र.	11.35	204.01
286	13801	भवानीनगर	श्री छत्रपति एसएसके लिमिटेड, भवानीनगर, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, पिन: 413104, महाराष्ट्र	11.7	209.38
287	14001	पाटस	भीमा एसएसके लिमिटेड, तालुका- डौंड पाटस, पिन: 412219, जिला पुणे, महाराष्ट्र.	11.37	204.01
288	14101	जुन्नार	विघ्नहर एसएसके लिमिटेड, जुन्नार, जिला पुणे, महाराष्ट्र	11.36	204.01
289	14201	अकलुज	शंकर महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एसएसके लिमिटेड, अकलुज, तहसील मलशिरस, पोस्ट यशवन्तनगर, जिला सोलापुर. महाराष्ट्र	11.28	202.22

290	14301	सदाशिवनगर	श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सदाशिवनगर, तहसील मलशिरस, जिला सोलापुर, पिन - 412111, महाराष्ट्र.	11.32	202.22
291	14401	कुमाथे	श्री सिद्धेश्वर एसएसके लिमिटेड, कुमाथे, पोस्ट तिकरवाडी, तहसील उत्तर सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र.	11.19	200.43
292	14501	गुरसाले	श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, वेणुनगर, पोस्ट गुरसाले, तहसील पंढरपुर, जिला सोलापुर, पिन: 413 304, महाराष्ट्र.	11.84	211.17
293	14701	भीमा	भीमा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सिकंदर तकली, तहसील माहोल जिला सोलापुर - 413 402, महाराष्ट्र.	11.88	212.96
294	17101	रावलगांव	रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड, पीओ: रावलगांव, जिला नासिक, पिन: 423108 महाराष्ट्र.	10.52	187.90
295	17701	मालीनगर	द सासवाड माली चीनी फैक्टरी लिमिटेड, पीओ मालीनगर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र.	11.66	209.38
296	17801	पांडुरंग	श्री पांडुरंग एसएसके लिमिटेड, श्रीपुर, तहसील मलशीरास, जिला सोलापुर, पिन: 413112, महाराष्ट्र.	12.16	218.33
297	18001	कोल्हापुर	श्री छत्रपति एसएसके लिमिटेड, कासबा भावदा, तहसील कारवीर, जिला कोल्हापुर, पिन: 416 006, महाराष्ट्र	12.35	221.91
298	33101	इन्दापुर	इन्दापुर एसएसके लिमिटेड, बिजवाडी, तहसील इन्दापुर , जिला पुणे, महाराष्ट्र.	10.96	196.85
299	33601	तसगांव	तसगांव एसएसके लिमिटेड, तसगांव साखर कारखाना यूनिट, तुरुचि, तहसील तसगांव, सांगली, महाराष्ट्र	12.35	221.91
300	34001	राजगढ़	राजगढ़ एसएसके लिमिटेड, निगाडे, तहसील बिहोर जिला पुणे, महाराष्ट्र.	10.78	193.27
301	35301	अगस्ती	अगस्ती एसएसके लिमिटेड, अकोले, पोस्ट:अगस्तीनगर, तहसील अकोले, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	11.66	209.38
302	37601	कैज	पदमश्री डॉ. विठ्ठल राव विखे पाटिल एसएसके लिमिटेड. कोठी टीके कैज, जिला बीड महाराष्ट्र	11.24	200.43
303	39501	संततुकाराम	श्री संत तुकाराम एसएसके लिमिटेड, कसारसाई - दारूमब्डे, पीओ: कसारसाई, तहसील मुलशी, जिला पुणे, पिन: 410506, महाराष्ट्र.	11.66	209.38
304	40001	शिरूर	घोडगंगा एसएसके लिमिटेड, नहावारे, तहसील शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र	11	196.85
305	46201	अम्बेगांव	भीमशंकर एसएसके लिमिटेड वाया अवासाई तहसील अम्बेगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र.	11.76	211.17
306	49601	भलवानी	केन एगो एनर्जी (आई) लिमिटेड, राईगोन, टीके खानपुर भलवानी, तहसील पंढरपुर, जिला सांगली, महाराष्ट्र.	11.42	204.01
307	51501	साईकृपा	साईकृपा साखर कारखाना लिमिटेड, देवडेथान, तहसील श्रीगोडां, जिला अहमदनगर - 413702, महाराष्ट्र.	10.75	193.27
308	52001	पिम्पलनेर	विठ्ठलराव शिंदे एसएसके लिमिटेड, गंगामाईनगर, पोस्ट पिम्पलनेर, तहसील मध, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र,	11.75	211.17
309	52301	लक्ष्मीनगर	लोकनेते बाबूराव पाटिल एसएसके लिमिटेड, लक्ष्मीनगर, अंगार, तहसील मोहोल, जिला सोलापुर, पिन: 413214, महाराष्ट्र.	11.38	204.01
310	52601	शाहजीनगर	नीरा भीमा एसएसके लिमिटेड, शाहजीनगर, तहसील इन्दापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र.	10.89	195.06
311	52801	भीलारवाडी	श्री मकई एसएसके लिमिटेड भीलारवाडी, टी. के. करमाला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	11.65	209.38
312	54101	पिम्पलगांव	कुकेदी एसएसके लिमिटेड, पिम्पलगांव पीसा, तहसील श्रीगोडां, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	10.98	196.85

313	56401	पेठण	श्रीनाथ महास्कोबा साखर कारखाना लिमिटेड, श्रीनाथ नगर, पेठण, पोस्ट पिम्पारी संडास, तहसील डोंड, जिला पुणे, पिन: 412 207, महाराष्ट्र.	11.03	196.85
314	60101	अनुराग	अनुराग शुगर्स लिमिटेड, मेवात, तालुका डोंड, जिला पुणे 412214, महाराष्ट्र.	11.07	198.64
315	60701	शेतफालगडे	मैसर्स बारामती एगो लिमिटेड, शेतफालगडे, तालुक: इन्दापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र	11.61	207.59
316	60801	चोरखाली	मैसर्स धाराशिव साखर कारखाना लिमिटेड. चोरखाली, तालुक: कलाम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	11.49	205.80
317	63301	अलेगांव	डोंड चीनी लिमिटेड, अलेगांव, तहसील दाऊद, जिला पुणे महाराष्ट्र	11.97	214.75
318	63901	धमोरी	मुक्तेश्वर चीनी मिल्स लिमिटेड, धाईगांव, संडुवाडा मार्ग, तहसील गंगापूर, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	11.41	204.01
319	64701	सिद्धनाथ	मैसर्स सिद्धनाथ चीनी मिल लिमिटेड पी. ओ. तिरहे, तहसील दक्षिण सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	10.15	182.53
320	66001	वम्बोरी	मैसर्स प्रसाद चीनी और संबद्ध कृषि उत्पाद लिमिटेड, वम्बोरी, तालुका-राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र.	10.76	193.27
321	66601	जतेगांव	मैसर्स वेकटेशकरूप चीनी मिल लिमिटेड, जतेगांव बीके, तहसील शीरपुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र.	11.11	198.64
322	66401	भैरवनाथ यूनिट- 2	मैसर्स भैरवनाथ शुगर वर्क्स लिमिटेड, यूनिट द्वितीय, विशाल सोलापुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र.	11.23	200.43
		बिहार			
323	21501	हसनपुर	न्यू इण्डिया शुगर मिल्स लि0, हसनपुर रोड, पोस्ट आफिस हसनपुर शुगर मिल्स, जिला समस्तीपुर, बिहार	9.5	170.00
324	21801	नरकटियागंज	द अवध शुगर मिल्स लि0, नरकटियागंज, जिला प0 चम्पारण, बिहार	9.7	173.58
325	21407	लौरिया	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, यूनिट गरौल जिला वैशाली, बिहार	4.39	170.00
326	21701	हरीनगर	बिहार राज्य चीनी मिल लिमिटेड, हरीनगर जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार.	9.47	170.00
327	21901	मझौलिया	मोतीलाल पदमपट उद्योग लिमिटेड, मझौलिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार.	9.3	170.00
328	22201	सासामूसा	सासामूसा शुगर वर्क्स प्रा. लिमिटेड, पीओ: सासामूसा, जिला. गोपालगंज, बिहार.	9.51	170.00
329	22301	गोपालगंज	द विष्णु चीनी मिल लिमिटेड, पीओ, विष्णु चीनी मिल, जिला गोपालगंज, बिहार.	9.5	170.00
330	22501	रीघा	रीघा चीनी कंपनी लिमिटेड, रीघा, जिला सीतामढ़ी, बिहार.	9.31	170.00
		आंध्र प्रदेश			
331	23609	एनसीएस शुगर्स	एनसीएस शुगर्स लि0, पोस्ट बॉक्स नं0 -1, खैराताबाद, हैदराबाद - लट्छयापेटा, जिला विजियानगरम, आंध्र प्रदेश	10	178.95
332	23901	चोदावरम	द चोदावरम कोआपरेटिव शुगर्स लि0, गोवादा, जिला विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	9.9	171.79
333	24301	विजयरामा	श्री विजयरामा गजपति कोआपरेटिव शुगर्स लि0, कुमारम, तालुका श्रृंगववरापुकोटा, भीमासिंधी, जिला विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	9.6	171.79
334	25101	जंपानी	क्रेब्स बायो कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि0 कोआपरेटिव शुगर्स लि0, तेनाली, जिला गंटूर, आंध्र प्रदेश	4.5	170.00
335	25201	कोवूर	द कोवूर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 कोवूर, जिला नल्लौर, आंध्र प्रदेश	7.9	170.00
336	25301	चित्तूर	द चित्तूर कोआपरेटिव शुगर लि0 चित्तूर, पी0ओ0 त्सावातेपल्ली, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	9.1	170.00

337	42601	निन्द्रा	पूडंशियल मौली शुगर्स लि0, निन्द्रा, गावं तहसील निन्द्रा मण्डल, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	8.9	170.00
338	23601	निज़ाम	द निज़ाम चीनी फैक्ट्री, शंकरनगर - 503180, जिला निज़ामाबाद, आंध्र प्रदेश	9.81	175.37
339	23602	ज़हीराबाद	ट्राइडेंट शक्कर कारखाना, पीओ डीडिगी, ज़हीराबाद, जिला मेडक-502228, आंध्र प्रदेश	10.54	187.90
340	23605	मुध्यम	निज़ाम डेक्कन शुगर्स लिमिटेड, पीओ मेटपल्ली मुध्यमपट, मंडल मल्लापुर, जिला करीमनगर, आंध्र प्रदेश	9.4	170.00
341	23608	डेकन	निज़ाम डेक्कन शुगर्स लिमिटेड, तालुका, मेडक, जिला मेडक, पिन: 502109, आंध्र प्रदेश	9.81	175.37
342	24001	अनकापल्ले	अनकापल्ले कॉप. एग्री. एंड इंड सोसा. लिमिटेड, पीओ अनाकापल्ले, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	8.14	170.00
343	24101	इतिकोप्पका	द इतिकोप्पका सहकारी कृषि और औद्योगिक सोसायटी लिमिटेड, इतिकोप्पका, जिला विशाखापट्टनम, पिन: 531 082, आंध्र प्रदेश	10.17	182.53
344	24501	भीमाडोले	द आंध्र शुगर्स लिमिटेड, भीमाडोले, जिला पश्चिमी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	9.7	173.58
345	24601	डेल्टा	डेल्टा शुगर्स लिमिटेड, सेरिनारासानापलेष, हनुमान जंक्शन, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश	9.62	171.79
346	25401	तिरुपति	श्री वेंकटेश्वर सहकारी चीनी फैक्टरी लिमिटेड, तिरुपति, गैलूमंडयम, जिला चित्तूर, पिन: 517 520, आंध्र प्रदेश	9.16	170.00
347	25501	चागलू	वी.वी.एस. चीनी (द जेपोर चीनी) कंपनी लिमिटेड, पीओ चागलू, जिला पश्चिमी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	10.64	189.69
348	25601	तनुक्	आंध्र शुगर्स लिमिटेड, तनुक्, जिला पूर्वी गोदावरी, 534 215, आंध्र प्रदेश	9.22	170.00
349	25602	टडुवाई	द आंध्र शुगर्स लिमिटेड, यूनिट: द्वितीय, टडुवाई: 534 447, जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	11.26	202.22
350	25801	समालकोट	नव भारत फेरो एलॉयज लिमिटेड, समालकोट, जिला पूर्वी गोदावरी पिन: 533 440, आंध्र प्रदेश	10.03	178.95
351	25901	चेलुरु	श्री सरवाराया शुगर्स लिमिटेड, पीओ चेलुरु, तहसील रामन्द्रपुरम मंडल, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	10.3	184.32
352	26001	व्यूरू	के.सी.पी. शुगर एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, व्यूरू, जिला कृष्णा पिन: 521 165, आंध्र प्रदेश	9.88	177.16
353	26101	लक्ष्मीपुरम	द के.सी.पी. शुगर एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, लक्ष्मीपुरम, जिला . कृष्णा पिन: 521 131, आंध्र प्रदेश.	8.57	170.00
354	34301	कल्लूर	काकातिया सीमेंट चीनी एंड इंडस्ट्रीज. लिमिटेड, पेरुवांचा ग्राम, कल्लूर मंडल, जिला खम्मम, पिन: 507 209, आंध्र प्रदेश	9.7	173.58
355	34401	नायडुपेटा	एम्पी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अय्यपारेडीपेलम, नायडुपेटा, जिला नेल्लोर, पिन: 524 126, आंध्र प्रदेश	8.7	170.00
356	43601	मयूर नगर	सुडालागुंटा शुगर्स लिमिटेड, बुच्चिनायडु कंडरीगा, जिला. चित्तूर, पिन: 517 644, आंध्र प्रदेश	9.45	170.00
357	43801	जी.एस. काम्पलैक्स	सरिता शुगर्स लिमिटेड, प्रभागिरीपटनम, पोडालकुर, जिला एस.पी.एस. आर नेल्लोर-524345, आंध्र प्रदेश	9	170.00
358	44601	एस.सी.एस गायत्री	गायत्री शुगर्स लिमिटेड, एडलार येलारेड्डी, सदाशिवनगर, जिला निज़ामाबाद, पिन: 503145, आंध्र प्रदेश	10.62	189.69
359	44701	सांगराडी	गणपति शुगर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुलूबगूर, सांगराडी मंडल, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश	10.59	189.69
360	44901	वरालक्ष्मी	मैसर्स द पेरी इंडस्ट्रीज शुगर्स लिमिटेड, संकली, अम्दालवालसा मंडल, जिला श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	9.63	171.79
361	55401	नेलावोय	सागर शुगर्स एंड एलायड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेलावोय ग्राम, श्री रंगराजापुरम मंडल, जिला चित्तूर, पिन:	8.57	170.00

			517167, आंध्र प्रदेश		
362	59201	मागी	मैसर्स जीएसआर शुगर्स प्रा. लिमिटेड, गांव मागी, निज़ामसागर मंडल, जिला निजामाबाद-503302, आंध्र प्रदेश	10.7	191.48
363	65201	कृष्णावेनी	मैसर्स कृष्णावेनी चीनी लिमिटेड, रामकृष्णपुर, मंडल कोठकोडा, जिला महबूबनगर, आंध्र प्रदेश.	10.81	193.27
		कर्नाटक			
364	26201	मंडया	मैसर्स शुगर को0 लि0, मंडया, जिला मंडया, कर्नाटक	9	170.00
365	27401	बीदर	बीदर एसएसके लि0, हल्लीखेड, जिला बीदर, कर्नाटक	10.3	184.32
366	27901	हेमावती	द हेमावती एसएसके लि0, हसान, जिला हसान, कर्नाटक	9.8	175.37
367	65501	कोरे ग्रीन	मसर्स कोरे ग्रीन शुगर एंड फ्यूल्स प्रा0 लि0, तुम्कुर, तालुका शाहपुर, जिला यादगीर, कर्नाटक	11.4	204.01
368	61301	सदाशिवा	मसर्स सदाशिवा शुगर लि0, नगराल-नैनेगाले, तहसील एवं जिला बगलकोट, कर्नाटक	11.7	209.38
369	17203	समीरवाडी	द गोदावरी बायोरिफायनरीज लिमिटेड, समीरवाडी मुढोल 587316, जिला बीजापुर, कर्नाटक	11.83	211.17
370	26601	निपाणी	श्री हलसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखाने लिमिटेड, पोओ निपाणी, तहसील चिकोडी, जिला बेलगाम -591 237, कर्नाटक	12.17	218.33
371	26701	संकेश्वर	श्री हिरण्यकेशी एसएसके नियमित, संकेश्वर - 591314, जिला बेलगाम, कर्नाटक	10.9	195.06
372	26801	मालाप्रभा	श्री मालप्रभा सहकारी चीनी फैक्टरी लिमिटेड, मुगथन हुबली - 591153, जिला बेलगाम, कर्नाटक	11.6	207.59
373	26901	चिकोडी	श्री दूधगंगा कृष्णा एसएसके नियमित, चिकोडी - 591247, जिला बेलगाम, कर्नाटक	11.9	212.96
374	27001	रायबाग	रायबाग एसएसके नियमित, तालुक रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक	11.57	207.59
375	27101	गोकक	द घटाप्रभा एसएसके नियमित, गोकक, जिला बेलगाम, कर्नाटक	11.05	198.64
376	28401	उगरखुर्द	द उगर शुगर्स वर्क्स लिमिटेड, उगरखुर्द - 591 316, जिला बेलगाम, कर्नाटक	11.86	212.96
377	40501	अथानी	कृष्णा एसएसके नियमित, अथानी -591304, डाक संकोनाटी, तहसील अथानी, जिला बेलगाम, कर्नाटक	12.26	220.12
378	40601	कुपतगिरी	मैसर्स लैला चीनी प्रा. लिमिटेड, मानसापुर, कुपतगिरी (वी) खानपुर-591302, जिला बेलगाम, कर्नाटक	11.18	200.43
379	45601	रान्नानगर	रायतार एसएसके नियमित, रान्नानगर, तहसील मुढोल, जिला बीजापुर, कर्नाटक	12.28	220.12
380	50201	मानोली	रेणुका शुगर्स लिमिटेड, मानोली, तहसील सवधाथी, जिला बेलगाम, कर्नाटक	12.42	221.91
381	50301	सिद्धापुर	श्री प्रभुलिंगेश्वर शुगर्स वर्क्स लिमिटेड, पोस्ट सिद्धापुर, जामखाडी, जिला बागलकोट, कर्नाटक	12.08	216.54
382	51901	मुढोल	निरामी शुगर्स लिमिटेड, पोस्ट: मुढोल, तहसील: मुढोल, जिला: बागलकोट, कर्नाटक	11.61	207.59
383	52004	मढभावी	अथानी किसान चीनी फैक्टरी लिमिटेड, मढभावी, तहसील अथानी, जिला बेलगांव, कर्नाटक	11.74	209.38
384	54201	जेम शुगर	जेम शुगर्स लिमिटेड, कुन्डरगी - 587204, बिलगी तालुका, जिला बागलकोट, कर्नाटक	11.92	212.96
385	54601	हीरेबेवानुर	दनयनयोगी श्री शिवकुमार स्वामीजी शुगर्स लिमिटेड, हीरेबेवानुर, जिला बीजापुर, पिन: 586 111, कर्नाटक	11.48	205.80
386	56001	हुनाश्याल	मैसर्स सतीश शुगर्स डिस्टलरीस लिमिटेड, हुनाश्याल पीजी, तहसील गोकक, जिला बेलगाम, कर्नाटक-591224.	10.76	193.27

387	57001	बाडागांडी	मैसर्स बिलागी शुगर मिल लिमिटेड, बाडागांडी, बिलागी, जिला बागलकोट, पिन: 587 116, कर्नाटक.	12.12	216.54
388	57301	सिददासमुद्रा	श्री सोमेश्वर एसएसके नियमित सिददासमुद्रा, पीओ बेलवाडी तालुक: बैलहोंगल, जिला बेलगाम, कर्नाटक	10.48	187.90
389	58801	बुरालाटी	श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, बुरालाटी, अथानी, जिला बेलगाम, कर्नाटक.	12.45	223.70
390	61601	उत्तूर	इंडियन केन पावर लिमिटेड, उत्तूर-587313, तहसील-मुढोल, जिला बागलकोट (कर्नाटक)	11.7	209.38
391	62101	बेल्लाड-बागेवाडी	विश्वनाथ शुगर्स एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेल्लाड-बागेवाडी-591305, तहसील हुकेरी, जिला बेलगाम, कर्नाटक.	11.29	202.22
392	62601	खानपेट	मैसर्स पैरी शुगर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (लेसी श्री धनलक्ष्मी एसएसके नियमित, रामदुर्ग), खानपेट, रामदुर्ग -591114, जिला बेलगाम, कर्नाटक	12.1	216.54
393	63501	हविनल	मैसर्स इंडियन शुगर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड यूनिट हविनल, तहसील इंडे, जिला बीजापुर, कर्नाटक	11.25	202.22
394	65701	सौंडटी	मैसर्स शिवशक्ति शुगर्स लिमिटेड, सौंडटी, तालुक - राईबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक	10.98	196.85
395	66301	शिव सागर	श्री शिवसागर शुगर एंड एग्रो. प्रो. लिमिटेड, पोस्ट उडापुडी, तहसील रामदुर्ग, जिला बेलगाम, कर्नाटक	10.68	191.48
396	26401	भद्रावती	द मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड, भद्रावती, जिला शिमोगा, पिन: 577 302, कर्नाटक	9.56	171.79
397	26501	पांडवापुरा	पांडवापुरा एसएसके लिमिटेड, पांडवापुरा आर.एस., जिला मांड्या, कर्नाटक.	8.22	170.00
398	27701	के.आर. नगर	श्रीरामा एसएसके लिमिटेड, चुनुचुनाकटे, तहसील के.आर. नगर, मैसूर जिला, कर्नाटक.	8.99	170.00
399	28101	चामुंडेश्वरी	चामुंडेश्वरी शुगर्स लिमिटेड, के.एम. डोडडी, तहसील मदुर, जिला मांड्या, कर्नाटक.	8.72	170.00
400	28501	होसपेट	द इंडिया शुगर्स एंड रिफाइनरीज लिमिटेड, चितवाडगी, होसपेट, जिला बेल्लारी, कर्नाटक	10.3	184.32
401	28601	श्रीगुप्पा	श्रीगुप्पा शुगर्स और कैमिकल्स लिमिटेड, तहसील श्रीगुप्पा, जिला बेल्लारी, पिन: 583140, कर्नाटक	10.01	178.95
402	28701	दावणगेरे	दावणगेरे शुगर्स कंपनी लिमिटेड, कुक्कावाडा, तहसील और जिला चित्रदुर्गा पिन: 577 525, कर्नाटक	9.23	170.00
403	28801	कोलेगल	महेश्वर शुगर्स लिमिटेड, कोलेगल, जिला मैसूर, कर्नाटक	11.19	200.43
404	30902	बास	बनारी अमान शुगर लिमिटेड, यूनिट द्वितीय, गांव अलगांधी, जिला मैसूर, कर्नाटक	10.83	193.27
405	49801	शमानुर	शमानुर शुगर्स लिमिटेड, दुडावाठी, तहसील हरपनहल्ली, जिला बेल्लारी, कर्नाटक	9.1	170.00
406	49901	मक्कावली	मैसर्स कोरोमंडल शुगर्स, मक्कावली, तहसील कृष्णाराजपेट जिला-मांड्या, कर्नाटक	9.68	173.58
407	55501	कोप्पा	एससीएम शुगर्स लिमिटेड, कोप्पा, तहसील मडूर, जिला मांड्या, पिन: 571 425, कर्नाटक	9.34	170.00
408	55901	बारूर	मैसर्स भवानी खांडसारी शुगर्स लिमिटेड, बारूर, तहसील और जिला बीदर, कर्नाटक	10.32	184.32
409	58501	हवलगा	श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, हवलगा, तहसील अफजलपुर, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक	11.32	202.22
410	61201	हुलाटी	मैसर्स पैरी शुगर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हुलाटी, पीओ हलियाल, जिला पैरी. उत्तर कन्नड़, कर्नाटक	12.31	220.12
411	62701	माली	द उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड, माली, तहसील जेवारगी, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक	10.86	195.06
412	66901	कोलावी	मैसर्स गोकक शुगर्स लिमिटेड, कोलावी, तालुका -	12	214.75

			गोकक, जिला बेलगाम, कर्नाटक पिन 591344.		
		तमिलनाडु			
413	25802	पुगालूर	इआईडी पैरी (इंडिया) लि0 पो0 आफिस पुगालूर शुगर फैक्ट्री, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	9.8	175.37
414	29101	अम्बूर	द अम्बूर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, वदापुदुपेट, अम्बूर, जिला उत्तरी अरकोट, तमिलनाडु	9.5	170.00
415	29201	वेल्लौर	द वेल्लौर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, अम्मूडी, जिला उत्तरी अरकोट, तमिलनाडु	9.4	170.00
416	29402	कचिरायापलयम	द कलाकुरिची-11 कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, कचिरायापलयम, तालुका कलाकुरिची, जिला विल्लुपुरम, आर0पी0 तमिलनाडु	9.5	170.00
417	29601	मदुरंतकम	द मदुरंतकम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, पदालम, जिला चेंगलपट्टू तमिलनाडु	6.2	170.00
418	29701	तिरुत्तानी	तिरुत्तानी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, तिरुत्तानी, जिला चेंगलपट्टू तमिलनाडु	8.7	170.00
419	30001	अमरावती	अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, कृष्णापुरम, जिला कोयम्बेटूर, तमिलनाडु	9.6	171.79
420	30301	कॉवेरी	इआईडी पैरी (इंडिया) लि0, पेड्यावकलाई, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	9.3	170.00
421	33001	सेतियाथोपे	एम0आर0 कृष्णमूर्ति कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, सेतियाथोपे, तहसील चिदम्बरम, जिला दक्षिण अरकोट, तमिलनाडु	7.6	170.00
422	59801	मोदाकुरिची	मसर्स शक्ति शुगर्स लि0 पूदूरई सेमुर, (मोदाकुरिची) तालुक एवं जिला इरोड, तमिलनाडु	9.7	173.58
423	63701	कल्यानाल्लूर	मसर्स धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लि0, कल्यानाल्लूर, संकरापरम, तालुका विल्लुपुरम, तमिलनाडु	9.2	170.00
424	28602	लालगुडी	कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कुडूर, तहसील लालगुडी, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	9.2	170.00
425	28901	तंजावुर	अरिनगर अन्ना शुगर्स मिल्स, कुरुंगुलम-613303, जिला तंजावुर, तमिलनाडु	8.6	170.00
426	28902	पेराम्बलूर	पेराम्बलूर शुगर्स मिल्स लिमिटेड, इरैयूर पी. ओ जिला पेराम्बलूर-621133, तमिलनाडु	8.59	170.00
427	29001	मईलादुथुरई	एन.पी.के.आर. रामासामी कोपा. शुगर्स मिल्स लिमिटेड, थलैयनयर, तहसील माइलादुत्रयी, जिला तंजावुर, पिन: 609 201, तमिलनाडु.	7	170.00
428	29301	तिरुपत्तूर	तिरुपत्तूर कोपा. चीनी मिल्स लिमिटेड, कोठांडपट्टी, जिला उत्तर अर्काट, तमिलनाडु	10.45	187.90
429	29401	कलाकुरिची	कलाकुरिची कोपा. शुगर्स मिल्स लिमिटेड, मूंगीथुरीपट्टू, जिला दक्षिण अर्काट, पिन: 605702, तमिलनाडु.	8.8	170.00
430	29501	उलुन्दुरपेट	चेंगलरायन सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पेरियासेवलाई, उलुन्दुरपेट जिला दक्षिण अर्काट, पिन: 607209, तमिलनाडु	8.45	170.00
431	29801	सेलम	द सेलम सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, मोहनुर, जिला सेलम, तमिलनाडु.	9.54	170.00
432	29901	धर्मापुरी	द धर्मापुरी जिला सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पालाकोड, जिला धर्मापुरी, पिन: 636808, तमिलनाडु.	10.57	189.69
433	30101	अलंगानाल्लूर	द राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल लिमिटेड अलंगानाल्लूर, जिला मदुरै, तमिलनाडु	9.99	178.95
434	30201	थिरुअरूरन	थिरुअरूरन शुगर्स लिमिटेड, चित्तूर, पीओ: नलूर, वृधाचलम तहसील, जिला कुड्डालोर, पिन: 606302, तमिलनाडु.	9.36	170.00

435	30202	थिरुमंडाकुडी	थिरुअरूरन शुगर्स लिमिटेड, थिरुमंडाकुडी, पापनासम तहसील, जिला तंजावुर, पिन: 612301, तमिलनाडु.	9.49	170.00
436	30401	नेल्लिकुप्पम	ईआईडी पैरी (इंडिया) लिमिटेड, नेल्लिकुप्पम, दक्षिण अर्काट पैरी तमिलनाडु	8.6	170.00
437	30501	विल्लुपुरम	राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, मुंडियामपक्कम, जिला दक्षिण अरकोट, पिन: 605 601, तमिलनाडु.	9.08	170.00
438	30601	अम्बिका	श्री अंबिका शुगर्स लिमिटेड, पेन्नादम, पेन्नादम, तहसील तिताकुडी, जिला दक्षिण अर्काट, पिन: 606 111, तमिलनाडु.	9.2	170.00
439	30602	कोटूर	श्री अंबिका शुगर्स लिमिटेड, कोटूर, थीरुविदैमथूर तहसील, जिला तंजावुर, पिन: 609804, तमिलनाडु.	9.23	170.00
440	30701	पोनी	पोनी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, पल्लीपलायम, तहसील- तिरुचंगोडे, जिला सलेम, पिन: 638 007, तमिलनाडु.	10.28	184.32
441	30801	शक्ति	द शक्ति शुगर्स लिमिटेड, शक्तिनगर, पीओ, जिला पेरियार इरोड तमिलनाडु	9.4	170.00
442	30802	शिवगंगा	शक्ति चीनी लिमिटेड, तहसील शिवगंगा, जिला पसुमपन, मथुरालिंगम, तमिलनाडु	9.86	177.16
443	30901	बनारी-अम्मान	बनारी-अम्मान शुगर्स लिमिटेड, गांव अलाथुकामबाई, सत्यमंगलम, जिला पेरियार, तमिलनाडु	10.45	187.90
444	32601	धरणी	धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड, तहसील, शिवगिरी, जिला तिरुनेवल्ली, पिन: 627 760, तमिलनाडु.	9.15	170.00
445	32603	पोलूर	धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, करायपूडी, पोलूर, जिला थिरुवन्नमलाई सैमबूवारयार, तमिलनाडु	9.36	170.00
446	32801	राजश्री	राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, पेरियाकुलम, जिला मदुरै, तमिलनाडु	10.02	178.95
447	33401	चैयार	तमिलनाडु सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, चैयार / वर्क वाश तहसील, जिला उत्तर अरकाट, तमिलनाडु.	7.85	170.00
448	35001	अलापुरम	सुब्रमणिय शिवा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, तहसील हावर, जिला धर्मपुरी, पिन: 636904, तमिलनाडु.	10.49	187.90
449	43501	पलयासीवरम	एस वी. चीनी मिल लिमिटेड, वालिजाबाद फिरका तहसील कांचीपुरम जिला चेगलपट्टू 631606, तमिलनाडु.	8.96	170.00
450	50501	अरंतांगी	ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड, अरंतांगी, जिला पुदुक्कोट्टई, पिन: 614 622, तमिलनाडु.	9.51	170.00
451	59001	सतमंगलम	मैसर्स कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सतमंगलम, टीके अरियालूम पोस्ट वेत्रयूर, तालुक: अरियालूर, जिला पेराम्बलूर तमिलनाडु	9.2	170.00
452	61801	सेमेडु	मैसर्स राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड सेमेडु, तालुक: जिंजी, जिला - विल्लुपुरम, तमिलनाडु.	9.33	170.00
453	64101	तिरुवान्नामलाई	मैसर्स बनारी अमान शुगर्स लिमिटेड, ठंडारामपट्टू तालुका, जिला तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु	9.93	177.16
454	66201	थिरुकोविलूर	मैसर्स मद्रास शुगर्स लिमिटेड, कल्लाकुरुची मेन रोड, वेंगूर ग्राम, थिरुकोविलूर (टीके), विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु.	9.85	177.16
		ओडिशा			
455	23001	अस्का	द अस्का कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लि0, अस्का, जिला गंजम, उड़ीसा	7.9	170.00
456	30803	धनकनाल	शक्ति शुगर्स लि0, हरिपुर, गांव तहसील धनकनाल सदर, जिला धनकनाल, उड़ीसा	9.5	170.00
457	23101	बारगढ़	द बारगढ़ सहकारी चीनी मिल लिमिटेड (पोनी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन के तहत) पीओ टोरा बारगढ़, जिला संबलपुर, उड़ीसा	8.08	170.00
458	30702	बिजय नन्दा	मैसर्स बिजयनन्दा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड बोटंगिर,	8.64	170.00

			पीओ सागरपल्ली, देवगाँव, जिला बोलंगीर (उड़ीसा)		
		गोवा			
459	31501	टिस्का	संजीवनी एसएसके लि0, दयानंदनगर, पोस्ट टिस्का, जिला गोवा	9	170.00
		पश्चिम बंगाल			
460	23401	प्लासी	खेतान एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लासी खेताननगर-741157, प्लासी, जिला नाडिया (पश्चिम बंगाल)	8.1	170.00
		पुदुचेरी			
461	31001	पांडिचेरी	द पांडिचेरी सहकारी चीनी मिल लिमिटेड लिंगारेड्डीपलायम, पोस्ट पुडुचेरी-605502	8.35	170.00
462	31101	अरियूर	ईद पैरी (आई) लिमिटेड, सगरूर (अरियूर) पीओ कंडामंगलम, जिला पांडिचेरी, पांडिचेरी.	9.08	170.00

[फा. सं. 3-2/2013-एस पी-II]

अधीर झा, निदेशक (एसडीएफ)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 22nd October, 2013

G.S.R. 697(E)/Ess.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, Bodies and Associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the 'fair and remunerative price' of sugarcane at Rs. 170.00 per quintal linked to a basic recovery of 9.5% sugar subject to a premium of Rs. 1.79 for every 0.1% point increase in the recovery above that level hereby fixes the price specified in column (4) of the Schedule hereto annexed as the 'fair and remunerative price' that shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule or their agents for the sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 2012-2013 ending the 30th September, 2013 subject to the rebates payable there for under clause 3A of the said Order:

Provided that where the transportation cost is borne by Sugar Mill Owners in the transportation of Sugarcane, from purchase centres to mills gate payment of transport rebate at the rate of 40 Paise per quintal per kilometre shall be made subject to a maximum of Rs. 7.91 per quintal for Sugarcane delivered for purchase at any purchasing Centre connected by rail or road:

Provided further that the aforesaid transport rebate from 'fair and remunerative price' shall be allowed only to those sugar mills which make cane price payment timely and clear all arrears of cane payment dues, together with due interest as per clause 3 of the said Sugarcane (Control) Order, 1966.

SCHEDULE

S. No.	Plant Code	Plant Name	Name and Address of Sugar Mill	Recovery %	Fair & Remunerative Price (Rs. per quintal)
Punjab					
1.	00101	GURDASPUR	Gurdaspur Cooperative Sugar Mills Ltd., Post Box No. 27, Gurdaspur, Distt. Gurdaspur-143521, Punjab.	8.4	170.00
2.	00201	BATALA	The Batala Cooperative Sugar Mills Ltd., Batala-143505, Distt. Gurdaspur, Punjab.	8.4	170.00
3.	00301	FAZILKA	The Fazilka Coop. Sugar Mills Ltd., Fazilka, Distt. Ferozepur, Punjab	9.1	170.00
4.	00401	MORINDA	The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd. P.O. Morinda, Ropar -140101, Punjab.	8.72	170.00
5.	00901	DHURI	Bhagwanpura Sugar Mills, Dhuri, Punjab.	9.57	171.79
6.	01001	PHAGWARA	Wahid Sandhar Sugars Ltd., Phagwara-144401, Distt-Kapurthala, Punjab	9.46	170.00
7.	31901	NAKODAR	Nakodar Coop. Sugar Mills Ltd. Nakodar,	8.33	170.00

			Distt. Jalandhar, Punjab		
8.	33501	AJNALA	The Ajnala Coop. Sugar Mills Ltd., Bhallapind, Ajnala, Distt. Amritsar, Punjab	7.73	170.00
9.	34201	MUKERIAN	Oswal Sugars Ltd., Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Pin : 144 211, Punjab.	9.92	177.16
10.	42301	AMLOH	Nahar Sugar & Allied Industries, Amlah, Tah. Nabha, Distt. Patiala, Punjab	9.6	171.79
11.	00801	BUDHEWAL	Budhewal Coop. Sugar Mills Ltd., Doraha, Teh. Samrala, Distt. Ludhiana, Punjab	9	170.00
Haryana					
12.	01201	PANIPAT	The Panipat Coop. Sugar Mills Ltd., Panipat, Distt. Panipat, Haryana	9.2	170.00
13.	01301	KARNAL	The Karnal Coop. Sugar Mills Ltd., Karnal, Distt. Karnal, Haryana	9.1	170.00
14.	01401	SONEPAT	Sonepat Coop. Sugar Mills Ltd., Sonepat, Distt. Sonepat, Haryana	8.8	170.00
15.	01601	PALWAL	The Palwal Coop. Sugar Mills Ltd., Teh. Palwal, Distt. Faridabad, Haryana	8.1	170.00
16.	42701	GOHANA	The Haryana State Fed. of Cooperative Sugar Mills Ltd. Gohana, Distt. Sonapat, Haryana	9.1	170.00
17.	01101	ROHTAK	The Haryana Coop Sugar. Mills Ltd., P.O. Rohtak, Distt. Rohtak Haryana	7.93	170.00
18.	01701	JIND	The Jind Coop. Sugar Mills Ltd., Teh. & Distt. Jind, Haryana	8.5	170.00
19.	01801	YAMUNANAGAR	The Saraswati Sugar Mills, P.O. Yamunanagar, Ambala-135001, Haryana.	10.01	178.95
20.	33801	KAITHAL	The Kaithal Cooperative Sugar Mills Limited P.O. Kaithal, Distt. Kaithal – 132027, Haryana.	8.21	170.00
21.	37701	NARAINGARH	The Naraingarh Sugar Mills Limited, P.O. Naraingarh, Distt. Ambala, Pin : 134202, Haryana	9.53	170.00
Rajasthan					
22.	01901	SRI GANGANAGAR	The Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sri Ganganagar-335001, Rajasthan.	7.66	170.00
Uttarakhand					
23.	02207	DOIWALA	U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Doiwala, Distt. Dehradun, Uttarakhand	8.7	170.00
24.	03101	IQBALPUR	The Maha Lakshmi Sugar Mills Co. Ltd., Iqbalpur, Distt. Haridwar, Uttarakhand.	8.83	170.00
25.	03201	LHAKSAR	Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Pvt. Ltd., Lhaksar - 247663, Distt. Haridwar, Uttarakhand.	9.5	170.00
26.	04001	KICHHA	Kichha Sugar Co. Ltd., Kichha, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.	9.47	170.00
27.	04401	BAZPUR	The Bazpur Coop. Sugar Factory Ltd., Bazpur, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.	9.63	171.79
28.	04501	NADEHI	The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Rajapur, Pooranpur Nadehi – 244717, Distt. Udham.Singh , Uttarakhand.	8.7	170.00
29.	04701	GADARPUR	The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Gadarpur, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.	9.03	170.00
30.	06101	KASHIPUR	DSM Agro Products Ltd., Unit DSM Sugar (Kashipur) Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.	8.69	170.00
31.	49201	LIBBERHERI	Uttam Sugar Mills Limited, Libberheri , Distt. Haridwar, Uttarakhand.	8.9	170.00
Uttar Pradesh					
32.	02202	SAKHOTI TANDA	The U.P. State Sugar Corpn.Ltd., Unit: Sakhoti-Tanda, Distt. Meerut, Uttar Pradesh	8.4	170.00
33.	02206	ROHANA KALAN	U.P. State Sugar Corpn. Ltd., P.O. Rohana Kalan, Distt. Muzaffarnagar, Uttar Pradesh	7.8	170.00

34.	02501	ANNOOPSHAHR	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Anoopshahr, Distt Bulandshahr, Uttar Pradesh	7.6	170.00
35.	03602	MALAKPUR	SBEC Sugar Ltd. Malakpur, Tehsil Baraut, Distt - Baghpat, Uttar Pradesh	8.2	170.00
36.	03701	SIMBHAOLI	The Simbhaoli Sugar Mills Pvt. Ltd., Simbhaoli, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh	8.8	170.00
37.	57601	GANGNAULI	M/s Bajaj Hindustan Ltd., At Gangnauli, Tehsil Deoband, Distt. Saharanpur, Uttar Pradesh	8.5	170.00
38.	58601	BRIJNATHPUR	M/s Simbhaoli Sugars Limited, Unit At Brijnathpur, Tehsil : Hapur, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh 245 101	8.6	170.00
39.	04201	GAJRAULA	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Gajraula, Distt. Moradabad, Uttar Pradesh	8	170.00
40.	04301	BILASPUR	Rudra Bilas kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Bilaspur, Uttar Pradesh	8.6	170.00
41.	04901	BISALPUR	Bisalpur Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Bisalpur, Distt. Pilibhit, Uttar Pradesh	7.8	170.00
42.	05301	BADAUN	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Badaun, Distt. Badaun, Uttar Pradesh	7.5	170.00
43.	05401	TILHAR	Kisan Sahakari Chini Mills, Tilhar, Distt. Shahajahanpur, Uttar Pradesh	7.5	170.00
44.	05701	SEMIKHERA	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Semi-Khera, Teh. & Distt. Bareilly, Uttar Pradesh	8.4	170.00
45.	05901	SEOHARA	Upper Ganges Sugar & Industries Ltd., Seohara, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh	9.4	170.00
46.	06201	ROSA	Rosa Sugar Works Ltd., (Prop. Oudh Sugar Mills Ltd.) Rosa, Distt. Shahajahanpur, Uttar Pradesh	9	170.00
47.	32901	NAJIBABAD	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sneh Road, Najibabad, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh	9.3	170.00
48.	55801	ANANDGOPI	M/s Anand Agrochem India Ltd. At. Gopi-Ladhua, Tehsil-Kol Sikandara Rao, Distt. Aligarh, Uttar Pradesh	8.2	170.00
49.	59501	BELWARA	M/s Rana Sugars Ltd. Belwara Tehsil & Distt: Moradabad, Uttar Pradesh	8.4	170.00
50.	66701	BISAULI	M/s Yadu Sugar Ltd. Village Sujanpur, Bisauli, Distt. Badaun, Uttar Pradesh	8.8	170.00
51.	67601	KARIMGANJ	Rana Sugars Ltd., Karimganj, Tehsil-Shahbad, Distt-Rampur, Uttar Pradesh	8.5	170.00
52.	02216	JARWAL	The U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Unit. Jarwal Road, Distt. Bahraich, Uttar Pradesh	8.4	170.00
53.	02220	KHADDA	The U.P. State Sugar Corpn.Ltd., P.O. Rajabazar, Unit Khadda, Distt. Padrauna, Uttar Pradesh	9.4	170.00
54.	06801	HARGAON	The Oudh Sugar Mills Ltd., Hargaon, Distt. Sitapur, Uttar Pradesh	9.6	171.79
55.	07401	GHOSI	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Ghosi, Distt. Mau, Uttar Pradesh	7.7	170.00
56.	07501	SULTANPUR	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sultanpur, Avadh, Uttar Pradesh	8.4	170.00
57.	07702	KHALILABAD	Khalilabad Sugar Mills Pvt. Ltd., Khalilabad, Distt. Basti, Uttar Pradesh	9.2	170.00
58.	07901	CAPTAINGANJ	The Kanoria Sugar & General Mfg. Co. Ltd., Captainganj, Distt. Padrauna, Uttar Pradesh	10	178.95
59.	59401	JAWAHARPUR	M/s Dalmia Chinni Mills Ltd, Jawaharpur, Tehsil- Sitapur Sadar, Distt. Sitapur, Uttar Pradesh	9.1	170.00
60.	61501	DHADHA BUJURG	The Oudh Sugar Mills Limited, Unit New India Sugar Mills, Located at Dhadha Bujurg, Tehsil Hata, Distt. Kushinagar Uttar Pradesh	9.9	177.16
61.	02301	BAGPAT	The Bagpat Coop. Sugar Mills Ltd., Bagpat, Distt. Bagpat, Uttar Pradesh.	7.71	170.00
62.	02401	RAMALA	Ramala Sahkari Chini Mills Ltd., Ramala, Distt. Bagpat, . Pin : 250 617, U.P.	8.28	170.00
63.	02601	SARSAWA	The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd.,	7.46	170.00

			Sarsawa, Distt. Saharanpur, Pin : 247 232, U.P.		
64.	02701	NANAUTA	Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Nanauta-247452 Distt. Saharanpur, U.P.	7.9	170.00
65.	02801	MORNA	The Ganga Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Morna Distt., Muzaffarnagar, U.P.	8.34	170.00
66.	02901	DAURALA	Daurala Sugar Works, Daurala, Distt. Meerut, Pin : 250221, U.P.	8.74	170.00
67.	02902	MAWANA	M/S Mawana Sugar Ltd. (unit Mawan Sugar unit) Mawana, Distt. Meerut – 250402, U.P.	8.64	170.00
68.	03001	DEOBAND	Triveni Engg. & Industries Ltd., Deoband, Distt. Saharanpur, Pin : 247554, U.P.	8.61	170.00
69.	03301	KHATAULI	Triveni Engg. Works Ltd., Sugar Unit, The Upper India Sugar Mills, Khatauli, Distt. Muzaffarnagar- 251201, U.P.	8.75	170.00
70.	03401	MANSURPUR	M/S Dhampur Sugar Mills Ltd., Mansurpur, Distt. Muzaffarnagar, U.P.	8.52	170.00
71.	03501	SHAMLI	The Upper Doab Sugar Mills, Shamli – 247776, Distt. Muzaffarnagar, U.P.	8.78	170.00
72.	03601	MODINAGAR	The Modi Industries Ltd., Modi Nagar - 201 204, Distt. Ghaziabad, U.P.	8.82	170.00
73.	35201	TITAWI	Siel Ltd., Titawi, Distt. Muzaffarnagar, Pin : 251301, U.P.	8.54	170.00
74.	47701	TODARPUR	Shakumbhari Sugar and Allied Inds. Ltd., At Todarpur Raghar, Distt. Saharanpur, U.P.	8.51	170.00
75.	48601	TIKAULA	Tikaula Sugar Mills Ltd., Tikaula, PO : Ramraj – 251320, Tehsil Jansath, Distt. Muzaffarnagar, U.P.	9.04	170.00
76.	48701	UNN	Sir Shadi Lal Enterprices Ltd., Un, Distt. Muzaffarnagar, Pin : 247776, U.P.	8.59	170.00
77.	55601	KINAUNI	Bajaj Hindusthan Ltd., Kinauni, PO: Rasoolpur, Distt. Meerut, Pin : 250502, U.P.	8.26	170.00
78.	56101	THANABHAWAN	M/S Bajaj Hindusthan Limited, Unit : Thanabhawan, Distt. Muzaffarnagar, Pin : 241772, U.P.	8.33	170.00
79.	56201	BHAISANA	M/S Bajaj Hindusthan Ltd, Unit : Bhaisana, PO : Budhana, Distt. Muzaffarnagar, Pin:251309, U.P.	8.83	170.00
80.	56801	NANGLAMAL	M/S Mawan Sugar Limited & Unit, (Nanglamal Sugar Complex), Nanglamal, Distt. Meerut, U.P.	8.61	170.00
81.	57201	SABITGARH	M/S Triveni Engg. & Industries Ltd., Sabitgarh – 203129 PO Karora, Khurja, Distt. Bullandshahr, U.P.	9.1	170.00
82.	59601	KHAIKHERI	M/S Uttam Sugar Mills Ltd., Unit- Khaikheri, Distt. Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.	8.87	170.00
83.	59701	SHERMAU	M/S Uttam Sugar Mills Ltd., Shermau, Tehsil-Nakur, Distt. Saharanpur (U.P.)	8.67	170.00
84.	04801	HARDUAGANJ	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Post Satha, Distt. Aligarh, Pin : 202127, U.P.	7.25	170.00
85.	05101	PURANPUR	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Puranpur, Distt. Pilibhit, Pin 262122, U.P.	6.88	170.00
86.	05501	BELRAYAN	The Sarjoo Sahakari Chini Mills Ltd., Belrayan, Distt. Kheri, U.P.	8.63	170.00
87.	05601	SAMPURANNAGAR	Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., Sampurnanagar, Distt. Lakhimpur Kheri, U.P.	8.36	170.00
88.	05801	DHAMPUR	Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, Distt. Bijnor, U.P.	9.55	171.79
89.	06001	RAJAKA SAHASPUR	The Ajudhia Sugar Mills, Raja-ka Sahaspur, Distt. Moradabad (U. P)	8.57	170.00
90.	06102	PILIBHIT	L.H. Sugar Factories Ltd., Pilibhit, Distt. Pilibhit, U.P.	9.09	170.00
91.	06401	AIRA	Gobind Sugar Mills Ltd., PO : Aira Estate, Lakhimpur Kheri, U.P.	9.14	170.00
92.	06701	NEOLI	Shervani Sugar Syndicate Ltd., PO : Neoli, Distt. Etah – 207402, U.P.	9.23	170.00

93.	47501	JK SUGAR	JK Industries Limited, Sindhauli Road, Meeranaj, Distt. Bareilly – 243504, U.P.	9.23	170.00
94.	47801	DWARIKESH	Dwarikesh Sugar Industries Ltd., Dwarikesh Nagar – 246762, Distt. Bijnor, U.P.	10.16	182.53
95.	48301	J. B. GANJ	DCM Shriram Consolidated Ltd., Ajbapur, PO: Mullapur, Distt. Lakhimpur Kheri, Pin: 261505, U.P.	9.59	171.79
96.	48401	AGWANPUR	Dewan Sugars Limited, Village Agwanpur, Moradabad – Haridwar Road, Distt. Moradabad, U.P.	8.97	170.00
97.	48501	RUPAPUR	M/S DCM Shriram Consolidated Ltd., (DSCL-Sugar -Rupapur) Rupapur, Distt. Hardoi, U.P.	9.35	170.00
98.	56301	BILAI	M/S Bajaj Hindusthan Ltd., Unit : Bilai, Distt. Bijnor, U.P.	9.63	171.79
99.	56601	DWARIKESHPURAM	Dwarikesh Sugar Industries Ltd., Dwarikesh Puram ; 246722, Distt. Bijnor, U.P.	9.73	173.58
100.	57401	PUDRIKHURD	M/S Uttam Sugar Mills Ltd., Village Barkatpur, Post Sabalpur Bitra, Tehsil Najibabad, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.	9.1	170.00
101.	57801	BARKHERA	M/S Bajaj Hindusthan Limited, Unit : Barkhera, Pilibhit-Bisalpur Road, Barkhera Kalan, Distt. Pilibhit – 26220, U.P.	8.96	170.00
102.	58001	CHANDANPUR	M/S Triveni Engineering & Industries Ltd. Unti at Chandanpur, PO. Chapna Tehsil: Hassanpur, Distt, J.P Nagar, Pin - 244 255, U.P	9.26	170.00
103.	58101	HARIAWAN	M/S DSCL Sugar – Hariawan, Village & PO: Hariawan, Distt. Hardoi – 241405, U.P.	9.53	170.00
104.	58201	LONI	M/S DSCL Sugar – Loni, Village Loni, PO: Anjhi Shahbad, Distt. Hardoi – 241124, U.P.	9.38	170.00
105.	58301	RANINANGAL	M/S Triveni Engineering & Industries Ltd. Unit at Raninangal, P.O. Allabad-Pipli, Teshil : Thakurdwara, Distt. Moradabad, Pin - 244401, U.P.	9.22	170.00
106.	58701	MILAK NARAYANPUR	M/S Triveni Engg. & Industries Ltd., Unit : Milaknarayanpur, Distt. Rampur, U.P.	9.04	170.00
107.	59101	RAJPURA	Dhampur Sugar Mills Ltd. Unit: Rajpura Tehsil: Gunnaur Distt. Badaun, U.P.	9.48	170.00
108.	60001	NIGOHI	M/S Dalmia Chini Mills (Prop. Dalmia Cement (Bharat) Ltd.) Unit: Nigohi, at Village Kuiyan, Post Areli, Distt. Shahjahanpur, U.P.	9.31	170.00
109.	60201	DWARIKESH DHAM	M/S Dwarikesh Sugar Industries Limited, Unit : Dwarikesh Dham – 243 503, Faridpur, Distt. Bareilly, U.P.	9.09	170.00
110.	60301	MAQSUDPUR	M/S Bajaj Hindusthan Ltd., Unit : Maqsodpur, Distt. Shahjahanpur, Pin : 242402, U.P.	9.18	170.00
111.	02219	SISWABAZAR	U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit- Siswabazar, Distt. Maharajanaj, Uttar Pradesh.	9.25	170.00
112.	03002	RAMKOLA	Triveni Engg. & Industries Ltd., Unit : Ramkola – 274305, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh.	10.29	184.32
113.	05802	RAUZAGAON	Dhampur Sugar Mills Ltd., (A unit of Balrampur Chini Mills Ltd.) Rauzagaon, Distt. Barabanki, U.P.	9.7	173.58
114.	06301	GOLA	Bajaj Hindusthan Ltd., Unit : Gola Gokaranath, Distt. Lakhimpur Kheri, Pin: 262802, U.P.	9.7	173.58
115.	06501	PALIAKALAN	Bajaj Hindusthan Ltd., Paliakalan, Distt. Kheri, U.P.	9.07	170.00
116.	07001	NANPARA	Shravasti Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Nanpara, Distt. Bahraich, U.P.	8.38	170.00
117.	07601	MAHMUDABAD	The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Mahmudabad (Avadh), Distt. Sitapur, U.P.	8.33	170.00
118.	08001	PADRAUNA	M/s Cawnpore Sugar Works Ltd., At & Post Padrauna-274304, Distt. Padrauna, Uttar Pradesh	9.31	170.00
119.	08101	SEORAH	The United Provinces Sugar Co. Ltd., at &	9.76	175.37

			Post Seorahi, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh.		
120.	08401	PRATAPPUR	M/S Bajaj Hindustan Sugar and Industries Ltd., Unit : Pratappur , Dist. Deoria,U.P.	9.6	171.79
121.	08501	WALTERGANJ	Govind Nagar Sugar Ltd., P.O. Walterganj, Distt. Basti,U.P.	9.39	170.00
122.	08502	BASTI	The Basti Sugar Mills Co.Ltd P.O. & Distt. Basti, U.P.	9.16	170.00
123.	08601	BISWAN	The Seksaria Biswan Sugar Factory Ltd., PO : Biswan, Distt. Sitapur, UP.	9.78	175.37
124.	08801	K.M.SUGAR	Kamalapat Motilal Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Motinagar, Distt. Faizabad U.P.	9.57	171.79
125.	08901	BALRAMPUR	Balrampur Chini Mills Limited, PO & Distt. Gonda, U.P.	9.67	173.58
126.	09001	TULSIPUR	Tulsipur Sugar Company, (Unit of Balrampur Chini Mills Ltd.), PO : Tulsipur, Distt. Gonda, U.P.	9.84	175.37
127.	09201	BABHMAN	The Balrampur Chini Mills Ltd., Unit : Babhnan,Distt. Gonda, U.P.	9.49	170.00
128.	37301	GADAURA	JHV Sugar Corporation Limited, Gadaura, Distt. Mahrajganj – 273305. U.P.	9.91	177.16
129.	47601	OSWAL OVERSEAS	Oswal Overseas Ltd. Nawabganj,Distt. Bareilly, U.P.	9.68	173.58
130.	48001	MAIZAPUR	Indo-Gulf Industries, Maizapur, Distt.Gonda, U.P.	9.13	170.00
131.	54501	HAIDERGARH	Balrampur Chini Mills Ltd.,Unit : Haidergarh, V&PO : Pokhra, Teh.Haidergarh, Distt.Barabanki, U.P.	9.12	170.00
132.	56501	AKBARPUR	Balrampur Chini Mills Limited Unit : Akbarpur, Distt. Ambedkar Nagar, U.P.	9.7	173.58
133.	57101	PARSENDI	M/S Parle Biscuits Pvt. Ltd., Parsendi, Tehsil Kaisarganj, Distt. Baharaich – 271903, U.P.	8.87	170.00
134.	57501	MANKAPUR	M/S Balrampur Chini Mills Limited,Unit : Mankapur, Distt.Gonda,U.P.	9.67	173.58
135.	57701	KHAMBARKHERA	M/S Bajaj Hindustan Ltd Unit at Khambarkhera Tehsil & Distt. Lakhimpurkheri, Pin - 271 200, U.P	9.46	170.00
136.	59301	KUMBHI	M/S Balrampur Chini Mills Ltd. Unit : Kumbhi, Village Kumbhi, Distt. Lakhimpur Kheri, U.P.	9.78	175.37
137.	60401	GULARIA	M/S Balrampur Chini Mills Limited,Unit Gularia, Golagokarnath, Distt. Lakhimpur Kheri, U.P.	9.02	170.00
138.	60501	RUDHAULI	M/S Bajaj Hindustan Ltd, Unit- Rudhali, At- Athdama,Teh -Rudhali Distt. Basti, U.P.	9.54	170.00
139.	60601	KUNDARKHI	M/S Bajaj Hindustan Ltd. Unit - Kundarkhi At- Kastuwa- Kundarkhi Teh. & Distt. Gonda, U.P.	9.25	170.00
140.	60901	ITAI MAIDA	M/S Bajaj Hindustan Ltd., Unit - Itai Maida, Tehsil Utraula,Distt. Balrampur, U.P.	9.73	173.58
Madhya-Pradesh					
141.	51201	KRISHAK	Krishak SSK Maryadit, Naryanpura,Teh.-Raghogarh, Distt.-Guna, Madhya Pradesh	9	170.00
142.	62201	KODIYA	M/s Shakti Sugar Mills Pvt Ltd Kodiya, Tehsil:- Gadarwara, Distt:- Narsinghpur, Madhya Pradesh	9.2	170.00
143.	62901	PONDAR	M/s Narmada Sugar Pvt. Ltd., Pondar, Tehsil Salichouka, Distt. Narsinghpur , Madhya Pradesh	9.2	170.00
144.	63001	THAINI	M/s Ramdev Sugar Pvt. Ltd. Dak Thaini, Tehsil Bankhedi, Distt. Hoshangabad, Madhya Pradesh.	9.2	170.00
145.	63101	BACHAI	M/s Mahakausal Sugar and Power Industries Ltd., Bachai, Tehsil & Distt. Narsinghpur, Madhya Pradesh.	8	170.00
146.	09501	NAVALNAGAR	Navalsingh Sahkari Shakkari Karkhana	10.94	195.06

			Maryadit, Naval Nagar, Distt. Burhanpur – 450331, Madhya Pradesh		
147.	09601	DABRA	The Gwalior Sugar Co. Ltd., Dabra, Distt. Gwalior, MADHYA PRADESH - 475110	8.59	170.00
148.	37201	KHALBUJURG	Girdharilal Sugar and Allied Industries Ltd., Narmada Nagar, Ghatwa, Tehsil Thikri, Distt. Khargone Pin : 451 660, Madhya Pradesh.	10.62	189.69
149.	61001	KARELI	Kareli Sugar Mill Pvt. Ltd., Gadarwara Road, Kareli, Distt. Narsinghpur, Madhya Pradesh.	9.68	173.58
Chattisgarh					
150.	64501	AMBIKAPUR	M/s. Maa Mahamaya SSK Ltd., Ambikapur, Pratappur Distt.-Sarguja, Chattisgarh	10	178.95
151.	54301	BHORAMDEV	Bhoramdev Sahakari Shakkar Utpadak Karkhana Marayadit, Kawardha, Chhattisgarh.	8.03	170.00
152.	65101	DANTESHWARI	Danteshwari Maiya S.S.K.Maryadit, Balod, Durg, Chhattisgarh.	7.2	170.00
Gujarat					
153.	41101	KOSAMBA	Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., At. Kosamba, Teh. Mangrul, Distt. Surat, Gujarat.	10.5	187.90
154.	10101	BARDOLI	Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., PO:Sardar Baugh, Baben – Bardoli – 394602, Distt.Surat, Gujarat.	11.17	200.43
155.	10201	MADHI	Shree Madhi Vibhag S. Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Madhi, Distt. Surat, Gujarat	10.59	189.69
156.	10301	CHALTHAN	Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Post Chalthan, Distt. Surat, Pin : 394305, Gujarat.	10.6	189.69
157.	10401	SAYAN	Shree Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sayan, Taluka Olpad, Surat, Gujarat.	10.29	184.32
158.	10501	MAHUVA	Shree Mahuva Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Bamania, Taluka Mahuva, Distt. Surat, Gujarat.	10.59	189.69
159.	10601	PANIARI	Shri Ukai Pradesh Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., PO: Paniari, Tal:Vyara, Distt. Surat, Gujarat.	8.12	170.00
160.	10701	GANDEVI	Sahakari Khand Udyog Mandal Ltd., Gandevi – 396360, Distt. Valsad, Gujarat.	11.68	209.38
161.	10801	MAROLI	Shree Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Kalyan nagar, PO: Maroli Bazar – 396436, Tal:Jalalpore, Distt. Valsad, Gujarat.	10.01	178.95
162.	10901	VALSAD	Shree Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd.,Pameria-Pardi, Tal. Valsad, Distt. Valsad, Gujarat.	10.42	186.11
163.	11101	KAMREJ	Shree Kamrej Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Navi Pardi, Taluka Kamrej, Distt. Surat, Pin:394150, Gujarat	10.35	186.11
164.	32101	VATARIA	Shree Ganesh Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Desad, Taluka Valia, Distt. Bharuch (Vataria), Gujarat	10.29	184.32
165.	40901	DHARIKHEDA	Shree Narmada Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Dharikheda, PO Timbi, Distt. Bharuch, Pin : 393140, Gujarat.	11.2	200.43
166.	41001	GANDHARA	Vadodara Distt. Coop. Sugarcane, Growers's Union Ltd., Gandhara Teh.-Karjan, Distt.- Vadodara, Gujarat	9.71	173.58
167.	41201	VIRPUR	Shree Valod Pradesh Khand, Udyog Sahakari Mandli Ltd., Virpur Tal. Valod, Distt-Valod, Gujarat	10.31	184.32
168.	57901	KUKARMUNDA	Govardhan Sugar Industries Kukarmunda, Nizar, Distt. Vyara (Tapi), Pin : 394380, Gujarat.	8.79	170.00

169.	11001	KODINAR	Shri Bileshwar Khand Udyog Khedut Sahakari Mandli Ltd., Kodinar, Distt. Amreli, Saurashtra, .Pin:362725, Gujarat	8.91	170.00
170.	11301	TALALA	Shree Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sasan Road, Talala, Distt. Junagarh, Pin : 362150, Gujarat.	10.16	182.53
Maharashtra					
171.	15601	VISHWAS	Vishwas SSK Ltd.,Yeshwant nagar, Post Chikhali, Taluka - Shirala, Distt.- Sangli, Maharashtra	13.1	234.44
172.	16001	MAHANKALI	Mahankali SSK Ltd., Kavathe Mahankali, Distt. Sangli, Maharashtra	11.6	207.59
173.	16801	GADHINGLAJ	Gadhinglaj Taluka SSK Ltd., Gadhinglaj, Distt. Kolhapur, Maharashtra	12.3	220.12
174.	17901	PHALTAN	New Phalthan Sugar Works Ltd., Taluka Phalthan, P.O. Shakhawadi, Distt. Satara, Maharashtra	11.3	202.22
175.	46901	RAIGAON	Cane Agro Energy (I) Ltd., Shetkari SSK Ltd. Raigaon Tk.-Khanapur, Distt.-Sangli, Maharashtra	11.6	207.59
176.	64901	HEMARUS	M/s Hemarus Industries Ltd., Gat No. 76, Chunnehatte, Raggale (KH), Tal-Chandgad, Distt-Kolhapur, Maharashtra	12.8	229.07
177.	18201	SILLOD	Sidheshwar SSK Ltd., Sillod Distt. Aurangabad, Maharashtra	10.9	195.06
178.	19101	SATPUDA	Shree Satpuda Tapi Parisar SSK Ltd., Sahada, P.O. Purshottamnagar, Distt. Dhulia, Maharashtra	10.3	184.32
179.	19701	AMBAJOGAI	The Ambajogai SSK Ltd., P.O. Ambasakhar, Tal.Ambajogai, Distt. Beed, Maharashtra	11.7	209.38
180.	20201	FAIZPUR	Madhukar SSK Ltd., P.O. Faizpur, Distt. Jalgaon, Maharashtra	10.5	187.90
181.	21301	JAMANI	Mahatma SSK Ltd., Jamani, Tal. Salo, Distt. Wardha, Maharashtra	9.9	177.16
182.	32001	WAIN GANGA	The Wainganga SSK Ltd., Teh. Maholi Road, Distt. Bhandara, Maharashtra	9.3	170.00
183.	39701	UJANA	Balaghat Setkari SSK Ltd. Ujana Teh. Ahmed nagar, Distt. Latur, Maharashtra	11.8	211.17
184.	40101	MUDKHEDE	Shri Bhaurao Chavan SSK Ltd., At Degaon, Teh. & Distt. Nanded, Maharashtra	11.9	212.96
185.	50101	PANGRI	Vaidyanath SSK Ltd. Pangari, Tk.- Ambajogai, Distt.- Beed, Maharashtra	11.4	204.01
186.	50701	RANJANI	Natural Sugar and Allied Industries Ltd., Ranjani, Kallam, Distt.- Osmanabad, Maharashtra	12	214.75
187.	51301	PANGAON	Pannageshwar Sugar Mills Ltd. Pangaon, Tk Renapur, Distt. Latur, Maharashtra	12.2	218.33
188.	53003	ARAVINDNAGAR	Priyadarshini Shetkari SSK Ltd., Tundar, Tal. Udgir Distt. Latur, Maharashtra	11.6	207.59
189.	53009	SHESHNAGAR	Jai Shivshankar SSK Ltd. Sheshnagar, Manjari, Tal. Mukhed, Distt. Nanded, Maharashtra	9.7	173.58
190.	55201	DOKARE	Aadiwasi SSK Navapura Nandurbar Vibhag Ltd. Dokare, Tal Navapura, Distt. Nandurbar, Maharashtra	10.2	182.53
191.	55701	BELA	Purti Sakhar Kakhana Ltd Village Khursapur (Bela) Tehsil - umrer, Distt. Nagpur, Maharashtra	9.5	170.00
192.	66101	PRATIBHA NAGAR	M/s. Sharad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pratibhanagar, Vihamandava, Tal-Paithan, Distt-Aurangabad, Maharashtra	5.7	170.00
193.	11901	KARAMVEER	Karamveer Kakasaheb Wagh SSK Ltd., Ranwad, Taluk Niphad, Distt. Nasik, Maharashtra	11.5	205.80
194.	12001	MATERWADI	Kadwa SSK Ltd., Materewadi Taluka Dindori, Distt. Nasik, Maharashtra	11.2	200.43
195.	12301	SANJIVANI	The Sanjivani (Takli) SSK Ltd., Tal. Kopargaon, Distt. Ahmednagar,	11	196.85

			Maharashtra		
196.	12701	PRAVARANAGAR	The Pravara SSK Ltd., Pravaranagar, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	12.3	220.12
197.	13701	MALEGAON	The Malegaon SSK Ltd., Malegaon, B.K. Distt. Pune, Maharashtra	11.9	212.96
198.	35501	SANT DHAMAJI	Shri Sant Damaji SSK Ltd., Shiranadagi, Tk. Karmala, Distt. Sholapur, Maharashtra	12.1	216.54
199.	38601	SANGOLA	Sangola TK SSK Ltd. Waki (Shivane), TK Sangola Distt. Sholapur, Maharashtra	10.2	182.53
200.	55301	TAKALIWADI	Shri Gurudatt Sugar Ltd. Takaliwadi, Shirol, Distt. Kolhapur, Maharashtra	13	232.65
201.	61101	MHALUNGE	M/s Nalawada Sugar Mills Ltd., Mhalunge, TK, Chandgad, Distt:- Kolhapur, Maharashtra	13	232.65
202.	61701	SONARI	M/s Bhairavanath Sugar Works Ltd, Sonari, TK.- Paranda, Distt:- Pune, Maharashtra	10.2	182.53
203.	65001	PIMPALDARA	M/s Shri Sant Karmadas SSK Ltd., Pimpaldara- Padsale Tal-Madha Distt-Solapur, Maharashtra	11	196.85
204.	65401	HIRADGAON	Shri Saikrupa Sugar At Post Hiradgaon, Tal-Shrigonda, Distt. Ahmednagar Maharashtra	10.1	180.74
205.	65601	JAKRAYA	M/s. Jakraya Sugar Ltd., Watwate, Taluka-Mohol, District-Solapur, Maharashtra	12.4	221.91
206.	66501	BHAGWANTNAGAR	M/s. Indeshwar Sugar Mills Ltd., Uplai, Barshi, Sitapur, Maharashtra	12	214.75
207.	14801	SHRIRAM	Shriram Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Phaltan – 415 523, Distt.Satara, Maharashtra.	11.41	204.01
208.	14901	KRISHNA	Krishna SSK Ltd., Rethare Bk., PO:Shivnagar, Tq. Karad, Distt. Satara, Pin : 415108, Maharashtra.	12.11	216.54
209.	15001	BHUINJ	Kisanveer Satara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhuinj, PO : Kisanveer Nagar, Tq. Wai, Distt. Satara, Pin : 415530, Maharashtra.	11.95	214.75
210.	15101	MARALI	Balashheb Desai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Daulatnagar (Marali), Taluka : Patan, Distt. Satara, Maharashtra.	12.07	216.54
211.	15201	SAHYADRI	Sahyadri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Yeshwantnagar – 415115, Karad, Distt. Satara, Maharashtra.	12.43	221.91
212.	15301	SHENDRE	Ajinkyatara Sah.Sakhar Karkhana Ltd., Shahunagar – Shendre, Tal.& Distt.Satara, Pin : 415001, Maharashtra.	12.18	218.33
213.	15501	WALWA	Rajarambapu Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rajaramnagar, Post Sakharale, Taluka Walwa, Distt. Sangli, Pin: 415414, Maharashtra	12.29	220.12
214.	15701	HUTATMA	Hutatma Kisan Ahir Sah.Sakhar Karkhana Ltd., Walwe, Distt. Sangli, Maharashtra.	13.3	238.02
215.	15801	ATPADI	Manganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Sonarsidhinagar – 415301, Distt.Sangli, Maharashtra	11.37	204.01
216.	16101	WARANA	Shree Warana SSK Ltd., Warananagar – 416113, Tal.Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra.	12.65	227.28
217.	16201	ICHALKARANJI	Shree Panchaganga SSK Ltd., Ganganagar – Ichalkaranji, Distt. Kolhapur, Pin : 416 116, Maharashtra.	12.17	218.33
218.	16301	KUMBHIKESARI	Kumbhi Kasari SSK Ltd., Kuditre Karvir, Distt. Kolhapur – 416204, Maharashtra.	12.98	232.65
219.	16401	BIDRI	Shri Doodhaganga Vedganga SSK Ltd., Bidri (Mouninagar), Tal.Kagal, Distt. Kolhapur, Maharashtra.	13.45	241.60
220.	16501	BHOGAWATI	Shri Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shahunagar(Parite), Distt. Kolhapur, Maharashtra.	12.7	227.28
221.	16601	SHIROL	Shree Datta Shetkari SSK Ltd., Dattanagar-416120, Tal. Shirol, Distt. Kolhapur, Maharashtra.	12.38	221.91

222.	16901	KAGAL	Shree Chhatapati Shahu Coop. Sugar Factory, Kagal-416216, Distt. Kolhapur, Maharashtra	12.83	229.07
223.	17201	HUPARI	Jawahar Shetkari SSK Ltd., Tal-Hatkangale, Distt. Kolhapur, Hupari - Yalgud -416203, Maharashtra	12.37	221.91
224.	31201	RAJARAM	Rajarambapu Surul, Unit. 2 SSK Ltd., Wategaon, Tal. Walwa, Distt. Sangli, Pin : 415410, Maharashtra.	12.85	230.86
225.	35901	JEUR	Adinath SSK Ltd, Shelgaon-Bhalwani, Adinathnagar, Post: Jeur, Tal. Karmala, Distt. Solapur, Maharashtra.	11.51	205.80
226.	38401	AJARA	Ajara Shetkari SSK Ltd., Ajara, Distt. Kolhapur, Maharashtra	12.96	232.65
227.	38801	KOREGAON	Jarandeshwar SSK Ltd., Chimangaon, Taluka Koregaon, Distt. Satara, Maharashtra.	12.44	221.91
228.	46001	WANGI	Sonhira Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Wangi, Taluka Khanapur, Distt. Sangli, Maharashtra	11.72	209.38
229.	46301	SONAWADE	Udaisingh Rao Gaikwad SSK Ltd., Sonawade, Distt-Kolhapur, Maharashtra	12.29	220.12
230.	50801	HAMIDWADA	Kagal Taluka SSK Ltd., Hamidwada-Kaulage, Tal. Kagal, Distt. Kolhapur, Pin : 416235, Maharashtra.	12.79	229.07
231.	52006	SHEWALEWADI	Rayat SSK Ltd., Shewalewadi, Tal. Karad, Distt. Satara, Pin:415111, Maharashtra.	11.88	212.96
232.	52501	SHARAD	Sharad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Narande-416110 Tq. Hatkanangale, Distt. Kolhapur, Maharashtra.	12.9	230.86
233.	53002	KUNDAL	Kranti Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kundal Tal. Palus, Distt. Sangli, Maharashtra.	12.27	220.12
234.	53005	TAMBALE	Indira Gandhi Bhartiya Mahila Vikas SSK Ltd., Tambale, Tal. Bhudargad, Distt. Kolhapur, Maharashtra	12.07	216.54
235.	53007	KARANWADI	Sarvodaya SSK Ltd., Karandwadi, Tal. Walwa, Distt. Sangli, Maharashtra.	12.83	229.07
236.	53008	MOHANNAGAR	Mohanrao Shinde SSK Ltd., Mohannagar, Post: Arag, Tal. Miraj, Distt. Sangli, Maharashtra	11.6	207.59
237.	54901	GAGAN	Padmashri Dr. D.Y. Patil SSK Ltd., Dnyanshantinagar, Tal. Gaganbavada, Distt. Kolhapur, Maharashtra.	12.36	221.91
238.	61401	MHAISGAON	Vitthal Sugars Manufacturing Ltd. Post; Mhaishgaon, Taluk Madha, Distt. Solapur, Maharashtra	11.66	209.38
239.	64601	JAYWANT	M/s Jaywant Sugars Limited At & P.O. Dhawarwadi, Taluka Karad, Distt. Satara - 415109, Maharashtra.	11.52	205.80
240.	18501	PAITHAN	Shri Sant Eknath SSK Ltd. Paithan, Distt. Aurangabad, Maharashtra	10.65	191.48
241.	19301	PUSAD	Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pusad, Vasantnagar Post, Pophali-445213, Tq. Umarkhed, Distt. Yavatmal, Maharashtra.	10.6	189.69
242.	19401	DONGARKHEDA	Marathwada SSK Ltd., Dongarkada, Tq. Kalamnuri, Distt. Hingoli, Maharashtra.	12.12	216.54
243.	19501	PATHRI	The Godavari Dudhana SSK Ltd., Deonandra, Taluka Pathari, Distt. Parbhani, Maharashtra	11.64	207.59
244.	19601	BASMATHNAGAR	Purna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Basmathnagar, Distt. Parbhani, Maharashtra.	11.78	211.17
245.	19801	GEORAI	Jai Bhavani SSK Ltd., Georai-431127, Distt. Beed, Maharashtra	10.51	187.90
246.	20601	SAMARTH	Samarth Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Mahalala, Post Ankushnagar - 431212, Tq. Ambad, Distt. Jalna, Maharashtra.	11.01	196.85
247.	20901	MANJARA	Manjara Shetkari SSK Ltd., Chincholirao Vilasnagar, Distt. Latur, Maharashtra.	12.4	221.91

248.	21001	KILLARI	Shetkari SSK Ltd., Killari Coop. Distt. Latur, Maharashtra.	11.01	196.85
249.	32301	GOLEGAON	Shankar SSK Ltd., Phulenagar, Teh. Bhokar, Distt. Nanded Maharashtra	11.41	204.01
250.	35601	MAJALGAON	Majalgaon SSK Ltd., Mithand, Telegaon-431131, Distt. Beed, Maharashtra.	10.98	196.85
251.	36501	CHOPDA	Shri Chopda SSK Ltd., Machale Chopda-425107, Distt. Jalgaon, Maharashtra.	9.56	171.79
252.	37501	SAMSHERPUR	Astoria Agro & Allied Industries Pvt Ltd., (Old Pushpadanteshwar SSK Ltd, Samsheerpur Tal. Nandurbar, Distt. Dhulia, Maharashtra	9.6	171.79
253.	46401	SIPORA BAZAR	Shree Rameshwar SSK Ltd., Raosaheb Nagar, Post Sipora Bazar, Tk. Bhokardan, Distt. Jalna, Maharashtra	10.6	189.69
254.	46801	MURUM	Shri Vitthal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Murum, Murum-413605, Tq. Omerga, Distt. Osmanabad, Maharashtra.	11.58	207.59
255.	51101	GANGAMAI	Gangamai Sugar Industries Ltd. Najik Babhulgaon, Post Rakshi, Tal. Shevgaon, Dist. Ahmednagar, Maharashtra	10.83	193.27
256.	51401	DWARKADHISH	Dwarkadhish Sakhar Karkhana Ltd., Sheware, Tal. Satana, Distt. Nasik-423301 Maharashtra.	10.66	191.48
257.	52003	NIVLI	Vikas SSK Ltd., Vaishalinagar, Nivli, Tq. & Distt. Latur, Maharashtra.	11.7	209.38
258.	52007	DINDAYALNAGAR	Chhatrapati Sambhaji Raje Sakhar Udyog Ltd., Dindayalnagar, Post Chitte-Pimpalgaon - 431201, Sambhajanagar, Distt. (Aurangabad), Maharashtra.	10.66	191.48
259.	52009	KASHEGAON	Dr. Babasaheb Ambedkar S.S.K. Ltd., Keshegaon-413506, Taluka & distt. Osmanabad, Maharashtra.	11.69	209.38
260.	52201	YOGESHWARI	Yogeshwari Sugar Ind. Ltd., Laxminagar, Tq. Pathri, Distt. Parbhani, Maharashtra.	11.91	212.96
261.	52401	PAWARWADI	Jay Mahesh Sugar Industries Ltd., Pawarwadi, Tq. Majalgaon, Distt. Beed Maharashtra.	11.44	204.01
262.	52901	HAVARGAON	Shambhu Mahadev Sugar & Allied Ind. Ltd., Havargaon, Tq. Kallam, Distt. Osmanabad Maharashtra,	11.13	198.64
263.	53001	MAULINAGAR	Shri Sant Shiromani Maruti Maharaj SSK Ltd., Maulinagar, Belkund, Tq. AUSA, Distt. Latur, Maharashtra.	11.27	202.22
264.	54801	NIWADA	Reva SSK Ltd., Niwada, Tq. Renapur, Distt. Latur, Maharashtra.	12.79	229.07
265.	58901	SHIVANI	Shree Saibaba Sugars Ltd., Shivani(BK), Gondri, Tal. AUSA, Distt. Latur, Maharashtra.	10.71	191.48
266.	63601	TIRTHPURI	M/S Sagar S S K Ltd. Thirthpuri, Tq. Ghansawangi, Distt. Jalna, Maharashtra	10.45	187.90
267.	63801	SAMRUDHI	M/s. Samrudhi Sugars Ltd., Renuka Nagar, TK- Ghansawangi., Distt:- Jalna, Maharashtra	11.27	202.22
268.	65901	TALEGAON	M/s. Jagruti Sugar & Allied Industries Ltd., Village Talegaon, Taluka Devni, District-Latur, Maharashtra.	12.57	225.49
269.	67101	ARYAN SUGARS	M/s. Aryan Sugars Pvt Ltd. At Khamgaon, Taluka-Barshi, District- Solapur, Maharashtra.	5.09	170.00
270.	11701	GIRNA	Girna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Bhausaheb Nagar Tal Malegaon Nasik-423201, Maharashtra.	10.19	182.53
271.	11801	NIPHAD	Niphad SSK Ltd., Post. Bhausaheb Nagar, Tq. Niphad, Distt. Nasik, Pin : 422301, Maharashtra.	10.3	184.32
272.	12101	PALSE	Nasik S.S.K. Ltd., Palse, Tal. & Distt. Nasik, Maharashtra.	10.6	189.69
273.	12201	VITHEWADI	Vasantrao Dada Patil SSK Ltd., Vithewadi, Lohanes, Tq. Deoli, Distt. Nasik, Maharashtra	11.03	196.85

274.	12401	KOPERGAON	The Kopergaon SSK Ltd., Post: Kolpewadi, Tq. Kopergaon, Distt. Ahmednagar, Pin: 423602, Maharashtra.	11.29	202.22
275.	12501	GANESHNAGAR	Shri Ganesh SSK Ltd, Shri Ganeshnagar PO: Ranjangaon (Khurd), Tq. Rahata, Distt. Ahmednagar, Pin : 413719, Maharashtra.	11.31	202.22
276.	12601	ASHOKNAGAR	Ashok SSK Ltd., Ashok nagar Post Shrirampur, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.	11.4	204.01
277.	12801	RAHURI	The Rahuri SSK Ltd., Post Rahuri Factory, Tq. Rahuri, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.	10.44	186.11
278.	12901	SHRIGONDA	The Shrigonda SSK Ltd., PO: Shrigonda, Tq. Shrigonda, Distt. Ahmednagar, Maharashtra	10.85	195.06
279.	13001	SANGAMNER	Sangamner Bhag SSK Ltd., Amrutnagar, Sangamner SK, Tq. Sangamner, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.	11.87	212.96
280.	13101	BHENDE	Dnyaneshwar SSK Ltd., Post Bhende SK, Tq. Newasa, Ahmednagar, Maharashtra	10.94	195.06
281.	13201	VRIDHESWAR	Shri Vridheshwar SSK Ltd., PO Vridheshwar SK Tq. Pathardi, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.	11.15	200.43
282.	13301	JAGADAMBA	Shri Jagdamba Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rashin Tal. Karjat, Ahmednagar-414403, Maharashtra.	11.37	204.01
283.	13401	SONAI	Mula SSK Ltd., Sonai, Tq. Newasa, Distt. Ahmednagar - 414105, Maharashtra.	11.21	200.43
284.	13501	PARNER	Parner Taluka SSK Ltd., Pangri, Devibhoyare, Tq. Parner, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.	11.01	196.85
285.	13601	NIRA	Shree Someshwar SSK Ltd., PO Someshwarnagar, Tq. Baramati, Distt. Pune, Pin : 412306, Maharashtra.	11.35	204.01
286.	13801	BHAVANINAGAR	Shri Chhatrapati SSK Ltd., Bhavaninagar, Tq. Indapur, Distt. Pune, Pin: 413104, Maharashtra	11.7	209.38
287.	14001	PATAS	Bhima SSK Ltd., Taluka-Daund Patas, Pin : 412219, Distt. Pune, Maharashtra.	11.37	204.01
288.	14101	JUNNAR	Vighnagar SSK Ltd., Junnar, Distt. Pune, Maharashtra	11.36	204.01
289.	14201	AKLUJ	Shankar Maharshi Shankarrao Mohite-Patil SSK Ltd., Akluj, Tq. Malshiras, Post. Yeshwantnagar, Distt. Solapur, Maharashtra	11.28	202.22
290.	14301	SADASHIVNAGAR	Shri Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sadashivnagar, Tal. Malshiras, Distt. Solapur, Pin -412111, Maharashtra.	11.32	202.22
291.	14401	KUMATHE	Shree Siddheshwar SSK Ltd., Kumathe, Post Tikearwadi, Tq. North Solapur, Distt. Solapur, Maharashtra.	11.19	200.43
292.	14501	GURSALE	Shri Vithal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Venunagar, Post Gursale, Tq. Pandharpur, Distt. Solapur, Pin : 413 304, Maharashtra.	11.84	211.17
293.	14701	BHIMA	Bhima Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sikandar Takli, The. Mahol, Distt. Solapur-413 402, Maharashtra.	11.88	212.96
294.	17101	RAVALGAON	The Ravalgaon Sugar Farm Ltd., PO : Ravalgaon, Distt. Nasik, Pin: 423108 Maharashtra.	10.52	187.90
295.	17701	MALINAGAR	The Saswad Mali Sugar Factory Ltd., PO Malinagar, Distt. Solapur, Maharashtra.	11.66	209.38
296.	17801	PANDURANG	Shree Pandurang SSK Ltd., Shreepur, Tq. Malshiras, Distt. Solapur, Pin : 413112, Maharashtra.	12.16	218.33
297.	18001	KOLHAPUR	Shri Chatrapati SSK Ltd., Kasaba Bhavada, Tq. Karvir, Distt. Kolhapur, Pin : 416 006, Maharashtra	12.35	221.91
298.	33101	INDAPUR	Indapur SSK Ltd., Bijawadi, Tq. Indapur, Distt. Pune, Maharashtra.	10.96	196.85
299.	33601	TASGAON	Tasgaon SSK Ltd., Tasgaon Sakhar Karkhana Unit, Turchi, Tq. Tasgaon, Sangli,	12.35	221.91

			Maharashtra		
300.	34001	RAJGAD	Rajgad SSK Ltd., Nigade, Tq. Bihor, Distt. Pune, Maharashtra.	10.78	193.27
301.	35301	AGASTI	Agasti SSK Ltd., Akole, Post : Agastinagar, Tq. Akole, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.	11.66	209.38
302.	37601	KAIJ	Padamshree Dr. Vithal Rao Vikhe Patil SSK Ltd. At Kothi TK. Kaij, Distt Beed. Maharashtra	11.24	200.43
303.	39501	SANTTUKARAM	Shri Sant Tukaram SSK Ltd., Kasarsai – Darumbre, PO : Kasarsai, Tq. Mulshi, Distt. Pune, Pin : 410506, Maharashtra.	11.66	209.38
304.	40001	SHIRUR	Ghodganga SSK Ltd., Nhavare, Tq. Shirur, Distt. Pune, Maharashtra	11	196.85
305.	46201	AMBEGAON	Bhimashankar SSK Ltd., Via Avasai Tq. Ambegaon, Distt. Pune, Maharashtra.	11.76	211.17
306.	49601	BHALWANI	Cane Agro Energy (I) Ltd., Raigon, TK Khanpur Bhalwani, Tq. Pandharpur, Distt. Sangli, Maharashtra.	11.42	204.01
307.	51501	SAIKIRPA	Saikrupa Sakhar Karkhana Ltd., Devdaitan, Tal. Shrigonda, Distt. Ahmednagar – 413702, Maharashtra.	10.75	193.27
308.	52001	PIMPALNER	Vitthalrao Shinde SSK Ltd., Gangamainagar, Post Pimpalner, Tq. Madha, Distt. Solapur, Maharashtra.,	11.75	211.17
309.	52301	LAXMINAGAR	Loknete Baburao Patil SSK Ltd., Laxminagar, Angar, Tq. Mohol, Distt. Solapur, Pin : 413214, Maharashtra.	11.38	204.01
310.	52601	SAHAJINAGAR	Nira Bhima SSK Ltd., Shahajinagar, Tq. Indapur, Distt. Pune, Maharashtra.	10.89	195.06
311.	52801	BHILARWADI	Shri Makai SSK Ltd. Bhilarwadi, TK. Karmala, Distt. Solapur, Maharashtra	11.65	209.38
312.	54101	PIMPALGAON	Kukadi SSK Ltd., Pimpalgaon Pisa, Tq. Shrigonda, Distt. Ahmednagar, Maharashtra.	10.98	196.85
313.	56401	PATETHAN	Shreenath Mhaskoba Sakhar Karkhana Ltd., Shreenath Nagar, Patethan, Post Pimpari Sandas, Tq. Daund, Distt. Pune, Pin : 412 207, Maharashtra..	11.03	196.85
314.	60101	ANURAG	Anurag Sugars Ltd., Mewat, Taluka Daund, Distt. Pune-412214, Maharashtra.	11.07	198.64
315.	60701	SHETPHALGADE	M/s Baramati Agro Ltd., Shetphalgade, Taluk: Indapur, Distt. Pune, Maharashtra	11.61	207.59
316.	60801	CHORAKHALI	M/s Dharashiv Sakhar Karkhana Ltd. At Chorakhali, Taluk : Kallam, Distt. Osmanabad, Maharashtra	11.49	205.80
317.	63301	ALEGAON	Daund Sugar Ltd., Alegaon, Tq. Daud, Distt. Pune, Maharashtra	11.97	214.75
318.	63901	DHAMORI	Mukteshwar Sugar Mills Ltd., Dhaegoan, Senduvara Road, Tq. Ganagapur, Distt. Aurangabad, Maharashtra	11.41	204.01
319.	64701	SIDDHANATH	M/s Sidhanath sugar mill Ltd. P. O. Tirhe, Tq. South Solapur, Distt. Solapur, MAHARASHTRA	10.15	182.53
320.	66001	VAMBORI	M/s. Prasad Sugar & Allied Agro Products Ltd., Vambori, Taluka- Rahuri, District- Ahmednagar, Maharashtra.	10.76	193.27
321.	66601	JATEGAON	M/s. Venkateshkrupa Sugar Mills Ltd., At Jategaon BK, Tal. Shirpur, District Pune, Maharashtra.	11.11	198.64
322.	66401	BHAIRAVNATH-UNIT -II	M/s. Bhairavnath Sugar Works Ltd., Unit-II, Vishal Solapur, District-Solapur, Maharashtra.	11.23	200.43
Bihar					
323.	21501	HASSANPUR	New India Sugar Mills Ltd., Hassanpur Road, P.O. Hassanpur Sugar Mills, Distt. Samastipur, Bihar	9.5	170.00
324.	21801	NARKATIAGANJ	The Oudh Sugar Mills Ltd., Narkatiaganj, Distt. West Champaran, Bihar	9.7	173.58
325.	21407	LAURIYA	Bihar State Sugar Corpn. Ltd., Unit-Garaul	4.39	170.00

			Distt. Vaishali, Bihar.		
326.	21701	HARINAGAR	Harinagar Sugar Mills Ltd., PO :Harinagar, Distt. West Champaran, Bihar.	9.47	170.00
327.	21901	MAJHAULIA	Motilal Padampt Udyog Ltd, Majhauilia, Distt. West Champaran, Bihar.	9.3	170.00
328.	22201	SASAMUSA	Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd., PO: Sasa Musa, Distt. Gopalganj, Bihar.	9.51	170.00
329.	22301	GOPALGANJ	The Vishnu Sugar Mills Ltd., PO; Vishnu Sugar Mills, Distt. Gopalganj, Bihar.	9.5	170.00
330.	22501	RIGHA	Riga Sugar Co. Ltd., Riga, Distt. Sitamarhi, Bihar.	9.31	170.00
Andhra Pradesh					
331.	23609	NCS SUGARS	NCS Sugars Ltd., P.B. No.1, Khairatabad, Hyderabad At Latchayyapeta, Distt. Vizianagaram, Andhra Pradesh	10	178.95
332.	23901	CHODAVARAM	The Chodavaram Coop. Sugars Ltd., Govada, Distt. Vishakhapatnam, Andhra Pradesh	9.9	177.16
333.	24301	VIJAYARAMA	Shri Vijayarama Gajapati Coop. Sugars Ltd., Kumaram, Tal. Srungavarapukota, Bhimasinghi, Distt. Visakhapatnam, Andhra Pradesh	9.6	171.79
334.	25101	JAMPANI	Krebs Bio Chemicals and Industries Ltd Coop. Sugars Ltd., Tenali, Distt. Guntur, Andhra Pradesh	4.5	170.00
335.	25201	KOVUR	The Kovur Coop. Sugar Factory Ltd., Kovur, Distt. Nellore, Andhra Pradesh	7.9	170.00
336.	25301	CHITTOOR	The Chittoor Coop. Sugar Ltd., Chittoor, P.O. Tsavatepalli, Distt. Chittoor, Andhra Pradesh	9.1	170.00
337.	42601	NINDRA	Prudential Mouli Sugars Ltd., At Nindra Village Teh. Nindra Mandal, Distt. Chittoor, Andhra Pradesh	8.9	170.00
338.	23601	NIZAM	The Nizam Sugar Factory, Shankarnagar – 503180, Distt. Nizamabad, Andhra Pradesh	9.81	175.37
339.	23602	ZAHEERABAD	Trident Sugars Factory, PO Didgi,Zaheerabad, Dist.Medak-502228, Andhra Pradesh	10.54	187.90
340.	23605	MUTHYAM	Nizam Deccan Sugars Ltd.,PO Metpally Muthyampet, Mandal Mallapur, Distt. Karimnagar, Andhra Pradesh.	9.4	170.00
341.	23608	DECCAN	Nizam Deccan Sugars Ltd.,Taluka- Medak, Distt. Medak, Pin:502109, Andhra Pradesh	9.81	175.37
342.	24001	ANAKAPALLE	Anakapale Coop. Agri.& Ind. Soc. Ltd.,PO Anakapalle, Distt. Visakhapatnam, Andhra Pradesh	8.14	170.00
343.	24101	ETIKOPPAKA	The Etikoppaka Coop. Agri.& Industrial Society Ltd., Etikoppaka, Distt. Visakhapatnam, Pin : 531 082, Andhra Pradesh.	10.17	182.53
344.	24501	BHIMADOLE	The Andhra Sugars Ltd., Bhimadole,Distt. West Godavari, Andhra Pradesh	9.7	173.58
345.	24601	DELTA	Delta Sugars Ltd., Serinarasannapalem, Hanuman Junction, Distt. Krishna, Andhra Pradesh.	9.62	171.79
346.	25401	TIRUPATI	Sri Venkateswara Coop. Sugar Factory Ltd., Tirupati, Gaiulamandyam, Distt. Chittoor, Pin : 517 520, Andhra Pradesh	9.16	170.00
347.	25501	CHAGALLU	V.V.S. Sugar (The Jeypore Sugar) Company Ltd., PO Chagallu, Distt. West Godavari, Andhra Pradesh	10.64	189.69
348.	25601	TANUKU	Andhra Sugars Ltd., Tanku,Distt. East Godavari, 534 215, Andhra Pradesh.	9.22	170.00
349.	25602	TADAUVAI	The Andhra Sugars Ltd., Unit : II,Tanduvai : 534 447, Distt. West Godawari, Andhra Pradesh.	11.26	202.22
350.	25801	SAMALKOT	Nava Bharat Ferro Alloys Ltd., Samalkot., Distt. East Godavari Pin : 533 440, Andhra Pradesh.	10.03	178.95

351.	25901	CHELLURU	Sri Sarvaraya Sugars Ltd.,PO Chelluru,Tal Ramchandrapuram Mandal, Distt. East Godavari, Andhra Pradesh	10.3	184.32
352.	26001	VUYYURU	K.C.P. Sugar & Industries Corp. Ltd., Vuyyuru, Distt. Krishna Pin : 521 165, Andhra Pradesh.	9.88	177.16
353.	26101	LAKSHMIPURAM	The K.C.P. Sugar & Industries Corp. Ltd.,Lakshmipuram, Distt. Krishna .Pin : 521 131.,Andhra Pradesh	8.57	170.00
354.	34301	KALLUR	Kakatiya Cement Sugar and Inds. Ltd., Peruvancha Village, Kallur Mandal,Distt. Khammam, Pin : 507 209, Andhra Pradesh	9.7	173.58
355.	34401	NAYUDUPETA	Empee Sugars and Chemicals Ltd.,Ayyaparedypalem, Naidupet, Distt. Nellore , Pin : 524 126, Andhra Pradesh	8.7	170.00
356.	43601	MAYURA NAGAR	Sudalagunta Sugars Ltd.,Butchinaidu Kandriga, Distt.Chittoor, Pin : 517 644, Andhra Pradesh	9.45	170.00
357.	43801	G.S.COMPLEX	Sarita Sugars Ltd., Prabhagiripatnam, Podalakur, distt. S.P.S. R. Nellore-524345, Andhra Pradesh.	9	170.00
358.	44601	NCS GAYATRI	Gayatri Sugars Limited, Adlar Yellareddy, Sadasivanagar, Distt. Nizamabad , Pin : 503145, Andhra Pradesh	10.62	189.69
359.	44701	SANGARADI	Ganapati Sugar Industries Ltd.,Kulubgoor, Sangareddy Mandal, Dist. Medak, Andhra Pradesh	10.59	189.69
360.	44901	VARALAKSHMI	M/s The Perry Industries Sugars Ltd., Sankili, Amadalvalasa Mandal, Distt. Srikakulam , Andhra Pradesh.	9.63	171.79
361.	55401	NELAVOY	Sagar Sugars & Allied Products Ltd., Nelavoy Village, Sri Rangarajapuram Mandal, Distt. Chittoor ,Pin:517167, Andhra Pradesh	8.57	170.00
362.	59201	MAAGI	M/s GSR Sugars Pvt.Ltd., at Village Maagi, Nizamsagar Mandal, Distt. Nizamabad-503302, Andhra Pradesh	10.7	191.48
363.	65201	KRISHNAVENI	M/S Krishnaveni Sugar Ltd, Ramakrishnapur, Mandal Kothakoda, Distt- Mahaboodnagar, Andhra Pradesh.	10.81	193.27
Karnataka					
364.	26201	MANDYA	Mysore Sugar Co. Ltd., Mandya, Distt. Mandya, Karnataka	9	170.00
365.	27401	BIDAR	Bidar SSK Ltd., Hallikhed, Distt. Bidar, Karnataka	10.3	184.32
366.	27901	HEMAVATI	The Hemavathy SSK Ltd., Hassan, Distt. Hassan, Karnataka	9.8	175.37
367.	65501	CORE GREEN	M/s. Core Green Sugar & Fuels Pvt Ltd., Tumkur, Tal-Shahpur, Distt-Yadgir, Karnataka	11.4	204.01
368.	61301	SADASHIVA	M/s Sadashiwa Sugar Ltd.,Nagaral-Nainegale Teh:- & Distt:- Bagalkot, Karnataka	11.7	209.38
369.	17203	SAMEERWADI	The Godavari Biorefineries Ltd., Sameerwadi Mudhol 587316, Distt. Bijapur, Karnataka.	11.83	211.17
370.	26601	NIPANI	Shri Halasidhanath Sahakari Sakhar Karkhane Ltd., P.O.Nipani,Tal. Chikodi, Distt. Belgaum-591 237, Karnataka	12.17	218.33
371.	26701	SANKESHWAR	Shri Hiranyakeshi SSK Niyamit, Sankeshwar – 591314, Distt. Belgaum, Karnataka.	10.9	195.06
372.	26801	MALAPRABHA	Shri Malprabha Coop. Sugar Factory Ltd., Muguthhan Hubli – 591153, Distt. Belgaum, Karnataka.	11.6	207.59
373.	26901	CHIKODI	Shri Doodhaganga Krishna SSK Niyamit, Chikodi – 591247, Distt. Belgaum, Karnataka.	11.9	212.96
374.	27001	RAIBAG	Raibag SSK Niyamit, Taluk Raibag, Distt. Belgaum, Karnataka	11.57	207.59

375.	27101	GOKAK	The Ghataprabha SSK Niyamit, Gokak, Distt. Belgaum, Karnataka.	11.05	198.64
376.	28401	UGARKHURD	The Ugar Sugar Works Ltd., Ugar Khurd – 591 316, Distt. Belgaum, Karnataka.	11.86	212.96
377.	40501	ATHANI	Krishna SSK Niyamit, Athani-591304, Post Sankonatti, Tq. Athani, Distt. Belgaum, Karnataka.	12.26	220.12
378.	40601	KUPATGIRI	M/S Laila Sugar Pvt. Ltd., Mansapur, Kupatgiri (V) Khanapur-591302, distt. Belgaum, Karnataka.	11.18	200.43
379.	45601	RANNANAGAR	Ryatar SSK Niyamit, Rannanagar, Tq. Mudhol, Distt. Bijapur, Karnataka.	12.28	220.12
380.	50201	MANOLI	Renuka Sugars Ltd, Manoli, Tal. Sawadathi, Distt. Belgaum, Karnataka	12.42	221.91
381.	50301	SIDDAPUR	Shri Prabhulingeshwar Sugar Works Ltd., Post Siddapur, Jamkhandi, Distt. Bagalkot, Karnataka.	12.08	216.54
382.	51901	MUDHOL	Nirani Sugars Limited, Post: Mudhol, Tal: Mudhol, Distt: Bagalkot, Karnataka.	11.61	207.59
383.	52004	MADBHAVI	Athani Farmers Sugar Factory Ltd., Madbhavi, Tq. Athani, Distt. Belgaum, Karnataka.	11.74	209.38
384.	54201	GEM SUGAR	Gem Sugars Limited, Kundargi – 587204, Biligi Taluk, Distt. Bagalkot, Karnataka.	11.92	212.96
385.	54601	HIREBEVANUR	Dnyanyogi Shri Shiv Kumar Swamiji Sugars Ltd., Hirebevanur, Distt. Bijapur, Pin : 586 111, Karnataka.	11.48	205.80
386.	56001	HUNASHAYAL	M/s Satish Sugar Distilleries Ltd., Hunshyal P.G., Tq. Gokak, Distt. Belgaum, Karnataka-591224.	10.76	193.27
387.	57001	BADAGANDI	M/S Bilagi Sugar Mill Ltd., Badagandi, Bilagi, Distt. Bagalkot, Pin : 587 116, Karnataka.	12.12	216.54
388.	57301	SIDDASAMUDRA	Shree Someshwar SSK Niyamit, At Siddasamudra, P.O. Belwadi Taluk: Bailhongal, Distt. Belgaum, Karnataka	10.48	187.90
389.	58801	BURALATTI	Shree Renuka Sugars Ltd., Buralatti, Athani, Distt. Belgaum, Karnataka.	12.45	223.70
390.	61601	UTTUR	Indian Cane Power Ltd., Uttur-587313, Taluk-Mudhol, Distt. Bagalkot (Karnataka)	11.7	209.38
391.	62101	BELLAD BAGEWADI	Vishwanath Sugars & Steel Industries Ltd., Bellad Bagewadi-591305, Tq. Hukkeri, Distt. Belgaum, Karnataka.	11.29	202.22
392.	62601	KHANPET	M/S Parry Sugars Industries Ltd. (Lessee Shri Dhanlaxmi S.S.K. Niyamit, Ramdurg), Khanpet, Ramdurg- 591114, Distt.-Belgaum, Karnataka	12.1	216.54
393.	63501	HAVINAL	M/S Indian Sugar Mfg. Company Ltd. Unit Havinal, Tq. Einde, Distt. Bzapur, Karnataka	11.25	202.22
394.	65701	SOUNDATTI	M/s. Shivshakti Sugars Ltd., Soundatti, Tk.-Raibag, District-Belgaum, Karnataka	10.98	196.85
395.	66301	SHIVA SAGAR	Shri Shivsagar Sugar & Agro Product Ltd., At/Post Udapudi, Tq. Ramdurg, District-Belgaum, Karnataka	10.68	191.48
396.	26401	BHADRAVATI	The Mysore Paper Mills Ltd. Bhadravathi, Distt. Shimoga, Pin : 577 302, Karnataka	9.56	171.79
397.	26501	PANDAVAPURA	Pandavapura SSK Ltd., Pandavapura R.S., Distt. Mandya, Karnataka.	8.22	170.00
398.	27701	K.R.NAGAR	Shreerama SSK Ltd., Chunchunakate, Tq. KR Nagar, Mysore Distt., Karnataka	8.99	170.00
399.	28101	CHAMUNDESWARI	Chamundeshwari Sugars Ltd., K.M. Doddi, Tal. Madur, Distt. Mandya, Karnataka	8.72	170.00
400.	28501	HOSPET	The India Sugars and Refineries Ltd., Chitwadgi, Hospet, Distt. Bellary, Karnataka.	10.3	184.32
401.	28601	SIRUGUPPA	Siruguppa Sugars and Chemcials Ltd., Tq. Siruguppa, Distt. Bellary, Pin : 583140, Karnataka,	10.01	178.95
402.	28701	DAVENGERE	Davangere Sugar Co. Ltd., Kukkuwada, Tq. and Distt. Chitradurga Pin : 577 525,	9.23	170.00

			Karnataka.		
403.	28801	KOLLEGAL	Maheswara Sugars Limited, Kollegal, Distt. Mysore, Karnataka	11.19	200.43
404.	30902	BAS	Bannari Amman Sugar Ltd., Unit-II, Village Alangandhi, Distt. Mysore, Karnataka	10.83	193.27
405.	49801	SHAMANUR	Shamanur Sugars Ltd., Duggavathi, Tq. Harapanahalli, Distt. Bellary, Karnataka.	9.1	170.00
406.	49901	MAKKAVALLI	M/S Coromandal Sugars, Makkavalli, Tal.-Krishnarajpet, Distt.-Mandya, Karnataka	9.68	173.58
407.	55501	KOPPA	SCM Sugars Ltd., Koppa, Tq. Maddur, Distt. Mandya, Pin : 571 425, Karnataka.	9.34	170.00
408.	55901	BAROOR	M/S Bhavani Khandsari Sugars Limited, Baroor, Tq. & Distt. Bidar, Karnataka.	10.32	184.32
409.	58501	HAVALGA	Shree Renuka Sugars Ltd., Havalga, Tal. Afzalpur, Distt. Gulberga, Karnataka.	11.32	202.22
410.	61201	HULLATI	M/S Parry Sugars Industries Ltd., Hulatti, PO Haliyal, District. Uttara Kannada, Karnataka	12.31	220.12
411.	62701	MALLI	The Ugar Sugar Works Ltd., Malli, Tal. Jewargi, Distt. Gulberga, Karnataka	10.86	195.06
412.	66901	KOLAVI	M/s. Gokak Sugars Ltd., Kolavi, Taluka-Gokak, Distt. Belgaum, Karnataka. Pin-591344.	12	214.75
Tamil Nadu					
413.	25802	PUGALUR	EID Parry(India)Ltd., P.O. Pugalur Sugar Factory, Distt. Tiruchirappalli, Tamilnadu	9.8	175.37
414.	29101	AMBUR	The Ambur Coop. Sugar Mills Ltd., Vadapudupet, Ambur, Distt. North Arcot, Tamilnadu	9.5	170.00
415.	29201	VELLORE	The Vellore Coop. Sugar Mills Ltd., Ammundi, P.O. Vellore Sugar Mills, Distt. North Arcot, Tamilnadu	9.4	170.00
416.	29402	KACHIRAYAPALAYAM	The Kallakurichi-II Coop. Sugar Mills Ltd., Kachirayapalayam, Taluka Kallakurichi, Distt. Villupuram R.P., Tamilnadu	9.5	170.00
417.	29601	MADURANTAKAM	The Madurantakam Coop. Sugar Mills Ltd., Padalam, Distt. Chengalpattu, Tamilnadu	6.2	170.00
418.	29701	TIRUTTANI	Tiruttani Coop. Sugar Mills Ltd., Tiruttani Distt. Chngalpattu, Tamilnadu	8.7	170.00
419.	30001	AMARAVATHI	Amravathi Coop. Sugar Mills Ltd., Krishnapuram, Distt. Coimbatore, Tamilnadu	9.6	171.79
420.	30301	CAUVERY	EID Parry (India) Ltd., Pettaivaykalai, Distt. Tiruchirappalli, Tamilnadu	9.3	170.00
421.	33001	SETHIATHOPE	M.R. Krishnamurthy Coop. Sugar Mills Ltd., Sethiathope, Teh. Chidambaram, Distt. South Arcot, Tamilnadu	7.6	170.00
422.	59801	MODAKURICHI	M/s Sakthi Sugars Ltd., Poondurai Semur, (Modakurichi) Tk. & Distt. Erode, Tamilnadu	9.7	173.58
423.	63701	KALYANALUR	M/s. Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Kalayanallur, Sunkaraparam, Tk-Villupuram, Tamilnadu	9.2	170.00
424.	28602	LALGUDI	Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Kattur, Tal. Lalgudi, Distt. Tiruchirappalli, Tamilnadu	9.2	170.00
425.	28901	THANJAVUR	Arignar Anna Sugar Mills, Kurungulam – 613303, Distt. Thanjavur, Tamilnadu.	8.6	170.00
426.	28902	PERAMBALUR	Perambalur Sugar Mills Ltd., Eraiyur P. O. Distt. Perambalur-621133, Tamilnadu.	8.59	170.00
427.	29001	MAYILADUTHURAI	N.P.K.R. Ramasamy Coop. Sugar Mills Ltd., Thalainayar, Tq. Mayiladuthurai, Distt. Thanjavur, Pin : 609 201, Tamilnadu.	7	170.00
428.	29301	TIRUPATTUR	Tirupattur Coop. Sugar Mills Ltd., Kothandapatti, Distt. North Arcot, Tamilnadu	10.45	187.90
429.	29401	KALLAKURICHI	Kallakurichi Coop. Sugar Mills Ltd., Moongilthuraipattu, Distt. South Arcot, Pin :	8.8	170.00

			605702, Tamilnadu.		
430.	29501	ULUNDURPET	Chengalrayan Coop. Sugar Mills Ltd., Periyasevalai, Ulunderpet Distt. South Arcot, Pin: 607209, Tamilnadu	8.45	170.00
431.	29801	SALEM	The Salem Coop. Sugar Mills Ltd., Mohanur, Distt. Salem, Tamilnadu.	9.54	170.00
432.	29901	DHARMAPURI	The Dharampuri Distt. Coop. Sugar Mills Ltd., Palacode, Distt. Dharampuri, Pin: 636808, Tamilnadu.	10.57	189.69
433.	30101	ALANGANALLUR	The National Coop. Sugar Mills Ltd. Alanganallur, Distt. Madurai, Tamilnadu	9.99	178.95
434.	30201	THIRU AROORAN	Thiru Arroran Sugars Limited, Chittur, PO: Nallur, Vriddhachalam Tq., Distt. Cuddalore, Pin: 606302, Tamilnadu.	9.36	170.00
435.	30202	THIRUMANDAKUDI	Thiru Arroran Sugars Limited, Tirumandangudi, Papanasam Tq., Distt. Thanjavur, Pin : 612301, Tamilnadu.	9.49	170.00
436.	30401	NELLIKUPPAM	EID Parry (India) Ltd., Nellikuppam, South Arcot, Tamilnadu.	8.6	170.00
437.	30501	VILLUPURAM	Rajshree Sugars and Chemicals Ltd., Mundiampakkam, Distt. South Arcot, Pin : 605 601, Tamilnadu	9.08	170.00
438.	30601	AMBIKA	Shree Ambika Sugars Limited, Pennadam, Pennadam, Tq. Tittakkudi, Distt. South Arcot, Pin : 606 111, Tamilnadu.	9.2	170.00
439.	30602	KOTTUR	Shree Ambika Sugars Limited, Kottur, Thiruvidaimaruthur Tq., Distt. Thanjavur, Pin : 609804, Tamilnadu.	9.23	170.00
440.	30701	PONNI	Ponni Sugars & Chemicals Ltd., Pallipalayam, Tal-Tiruchengode, Distt. Salem, Pin : 638 007, Tamilnadu.	10.28	184.32
441.	30801	SAKTHI	The Sakthi Sugars Ltd., Sakthinagar, P.O. Erode, District Periyar, Tamilnadu	9.4	170.00
442.	30802	SHIVGANGA	Shakti Sugar Ltd., Tal. Sivganga, District Pasumpam, Muthuraalingam, Tamilnadu	9.86	177.16
443.	30901	BANNARIAMMAN	Bannari Amman Sugars Ltd., Village Alathukombai, Sathyamanglam, District Periyar, Tamilnadu	10.45	187.90
444.	32601	DHARANI	Dharani Sugar and Chemicals Ltd., Tal-Sivagiri, Distt. Tirunevalli, Pin : 627 760, Tamilnadu.	9.15	170.00
445.	32603	POLLUR	Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Karaipoondi, Tak. Polur, Distt. Thiruvannamalai Sambubarayar , Tamilnadu	9.36	170.00
446.	32801	RAJSHREE	Rajshree Sugars & Chemicals Ltd., Periyakulam, Distt. Madurai , Tamilnadu	10.02	178.95
447.	33401	CHEYEAR	Tamilnadu Coop. Sugar Mills Ltd., Cheyyar/Work Wash Tq., Distt. North Arcot, Tamilnadu.	7.85	170.00
448.	35001	ALAPURAM	Subramaniya Siva Coop. Sugar Mills Ltd., The. Hawr, Distt. Dharampuri, Pin : 636904, Tamilnadu .	10.49	187.90
449.	43501	PALAYASEEVARAM	S. V. Sugar Mills Ltd., Waljabad Firka Tal. Kanchipuram Distt. Chegalpattu 631606, Tamilnadu.	8.96	170.00
450.	50501	ARANTANGI	E.I.D. Parry (India) Ltd., Aranthangi, Distt. Pudukkottai, Pin : 614 622, Tamilnadu.	9.51	170.00
451.	59001	SATHAMANGALAM	M/S Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Sathamangalam, TK Ariyalum Post. Vetriyur, Taluk: Ariyalur, Distt. Perambalur, Tamilnadu	9.2	170.00
452.	61801	SEMMEDU	M/S Rajashree Sugar & Chemicals Ltd., Semmedu , Taluk : Gingee, Distt.- Villupuram, Tamilnadu	9.33	170.00
453.	64101	TIRUVANNAMALI	M/S Bannari Aman Sugars Limited, Thandarampattu Taluk, Distt. Tiruvannamalai, Tamilnadu	9.93	177.16
454.	66201	THIRUKOVILUR	M/s. Madras Sugars Ltd., Kallakurichi Main Road, Vengur Village, Thirukovilur, (TK), Villupuram District, Tamilnadu.	9.85	177.16

Orissa					
455.	23001	ASKA	The Aska Coop. Sugar Industries Ltd., Aska, Distt. Ganjam, Orissa	7.9	170.00
456.	30803	DHENKANAL	Sakthi Sugars Ltd., Hariipur, Village Teh. Dhankanal Sadar, Distt. Dhenkanal, Orissa	9.5	170.00
457.	23101	BARGARH	The Baragarh Coop. Sugar Mills Ltd., (Under the Management of Ponni Sugars & Chemicals Ltd.,) P.O. Tora Baragarh, Distt. Sambalpur, Orissa	8.08	170.00
458.	30702	BIJAY NANDA	M/s. Bijayananda Coop. Sugar Mills Ltd., At Botangir, P.O. Sagarpalli, Deogaon, Distt. Bolangir (Orissa)	8.64	170.00
Goa					
459.	31501	TISKA	Sanjivani SSK Ltd., Dayanandnagar, Post Tiska, Distt. Goa	9	170.00
West Bengal					
460.	23401	PLASSEY	Khaitan Agro Industries Ltd., Plassey Khaitan Nagar-741157, Plassey, Distt. Nadia (West Bengal)	8.1	170.00
Puduchhery					
461.	31001	PONDICHERRY	The Pondicherry Coop. Sugar Mills Ltd., At Lingareddipalayam, Post, Puducherry-605502	8.35	170.00
462.	31101	ARIYUR	Eid Parry (I) Ltd., Sagrur (Ariyur) P.O. Kandamanglam, Distt. Pondicherry, Pondicherry.	9.08	170.00

[F. No. 3-2/2013-SP-II]

ADHIR JHA, Director (SDF)